

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए।
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 48 pages.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक कार्यालय प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटा है एवं परीक्षा पुस्तिका में भौतिकी, रसायनशास्त्र एवं जीवविज्ञान (वनस्पतिविज्ञान एवं प्राणिविज्ञान) विषयों से 200 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं (4 विकल्पों में से एक सही उत्तर है)। प्रत्येक विषय में 50 प्रश्न हैं जिनको निम्न वर्णनुसार दो अनुभागों (A तथा B) में विभाजित किया गया है :
 - अनुभाग A के प्रत्येक विषय में 35 (पैंतीस) (प्रश्न संख्या 1 से 35, 51 से 85, 101 से 135 एवं 151 से 185) प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
 - अनुभाग B के प्रत्येक विषय में 15 (पंद्रह) (प्रश्न संख्या 36 से 50, 86 से 100, 136 से 150 एवं 186 से 200) प्रश्न हैं। अनुभाग B से परीक्षार्थियों को प्रत्येक विषय से 15 (पंद्रह) में से कोई 10 (दस) प्रश्न करने होंगे। परीक्षार्थियों को सुझाव है कि प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व अनुभाग B में प्रत्येक विषय के सभी 15 प्रश्नों को पढ़ें। यदि कोई परीक्षार्थी 10 प्रश्न से अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसके द्वारा उत्तरित प्रथम 10 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on OFFICE Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and the Test Booklet contains 200 multiple-choice questions (four options with a single correct answer) from Physics, Chemistry and Biology (Botany and Zoology). 50 questions in each subject are divided into two Sections (A and B) as per details given below :
 - Section A shall consist of 35 (Thirty-five) Questions in each subject (Question Nos – 1 to 35, 51 to 85, 101 to 135 and 151 to 185). All questions are compulsory.
 - Section B shall consist of 15 (Fifteen) questions in each subject (Question Nos – 36 to 50, 86 to 100, 136 to 150 and 186 to 200). In Section B, a candidate needs to attempt any 10 (Ten) questions out of 15 (Fifteen) in each subject.
Candidates are advised to read all 15 questions in each subject of Section B before they start attempting the question paper. In the event of a candidate attempting more than ten questions, the first ten questions answered by the candidate shall be evaluated.
- Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. **The maximum marks are 720.**
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/marking responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जायेगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

अनुक्रमांक : अंकों में

Roll Number : in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

Facsimile signature stamp of

Centre Superintendent : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

अनुभाग - A (भौतिकी)

1. ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं :
 - (1) जो द्विध्रुव आधूर्ण केवल तभी प्राप्त करते हैं, जब चुम्बकीय क्षेत्र अनुपस्थित होता है।
 - (2) जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आधूर्ण होता है।
 - (3) जिनका द्विध्रुव आधूर्ण शून्य होता है।
 - (4) जो विद्युत क्षेत्र के उपस्थित में ही द्विध्रुव आधूर्ण प्राप्त करते हैं, आवेशों के विस्थापन के कारण।

2. एक कण पृथ्वी सतह से S ऊँचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊँचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा इसकी स्थितिज ऊर्जा की तीन गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊँचाई तथा कण की चाल होती है :
 - (1) $\frac{S}{2}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$
 - (2) $\frac{S}{4}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$
 - (3) $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$
 - (4) $\frac{S}{4}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$

3. स्तम्भ - I धात्वीय चालक से प्रवाहित धारा से सम्बन्धित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करता है। स्तम्भ - II समान गणितीय सम्बन्ध जिनमें विद्युत राशियाँ सम्मिलित होती हैं, को व्यक्त करता है। स्तम्भ - I को स्तम्भ - II से सही सम्बन्ध द्वारा सुमेलित कीजिए :

स्तम्भ - I	स्तम्भ - II
(A) अनुगमन वेग	(P) $\frac{m}{ne^2\rho}$
(B) विद्युतीय प्रतिरोधकता	(Q) nev_d
(C) श्रांति काल	(R) $\frac{eE}{m}\tau$
(D) धारा घनत्व	(S) $\frac{E}{J}$
(1) (A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)	
(2) (A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)	
(3) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)	
(4) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)	

4. यदि बल [F], त्वरण [A] तथा समय [T] को मुख्य भौतिक राशियाँ मान लिया जाए, तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए।
 - (1) [F] [A] [T^{-1}]
 - (2) [F] [A^{-1}] [T]
 - (3) [F] [A] [T]
 - (4) [F] [A] [T^2]

Section - A (Physics)

1. Polar molecules are the molecules :
 - (1) acquire a dipole moment only when magnetic field is absent.
 - (2) having a permanent electric dipole moment.
 - (3) having zero dipole moment.
 - (4) acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to displacement of charges.

2. A particle is released from height S from the surface of the Earth. At a certain height its kinetic energy is three times its potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively :
 - (1) $\frac{S}{2}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$
 - (2) $\frac{S}{4}, \sqrt{\frac{3gS}{2}}$
 - (3) $\frac{S}{4}, \frac{3gS}{2}$
 - (4) $\frac{S}{4}, \frac{\sqrt{3gS}}{2}$

3. **Column - I** gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. **Column - II** gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match **Column - I** and **Column - II** with appropriate relations.

Column - I	Column - II
(A) Drift Velocity	(P) $\frac{m}{ne^2\rho}$
(B) Electrical Resistivity	(Q) nev_d
(C) Relaxation Period	(R) $\frac{eE}{m}\tau$
(D) Current Density	(S) $\frac{E}{J}$
(1) (A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)	
(2) (A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)	
(3) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)	
(4) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)	

4. If force [F], acceleration [A] and time [T] are chosen as the fundamental physical quantities. Find the dimensions of energy.
 - (1) [F] [A] [T^{-1}]
 - (2) [F] [A^{-1}] [T]
 - (3) [F] [A] [T]
 - (4) [F] [A] [T^2]

5. पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के त्रिज्या के चार गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह के सतह से पलायन वेग होता है :

- (1) $3 v$
- (2) $4 v$
- (3) v
- (4) $2 v$

6. विरामावस्था ($t=0$) से एक छोटा ब्लॉक चिकने नतसमतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अन्तराल $t=n-1$ से $t=n$ के बीच ब्लॉक द्वारा चली गयी दूरी S_n हो, तो $\frac{S_n}{S_{n+1}}$ का अनुपात होता है :

- (1) $\frac{2n+1}{2n-1}$
- (2) $\frac{2n}{2n-1}$
- (3) $\frac{2n-1}{2n}$
- (4) $\frac{2n-1}{2n+1}$

7. M द्रव्यमान तथा d घनत्व की छोटी गेंद का वेग गिलसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि गिलसरीन का घनत्व $\frac{d}{2}$ हो, तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा :

- (1) $\frac{3}{2}Mg$
- (2) $2Mg$
- (3) $\frac{Mg}{2}$
- (4) Mg

5. The escape velocity from the Earth's surface is v . The escape velocity from the surface of another planet having a radius, four times that of Earth and same mass density is :

- (1) $3 v$
- (2) $4 v$
- (3) v
- (4) $2 v$

6. A small block slides down on a smooth inclined plane, starting from rest at time $t=0$. Let S_n be the distance travelled by the block in the interval $t=n-1$ to $t=n$. Then, the ratio $\frac{S_n}{S_{n+1}}$ is :


- (1) $\frac{2n+1}{2n-1}$
- (2) $\frac{2n}{2n-1}$
- (3) $\frac{2n-1}{2n}$
- (4) $\frac{2n-1}{2n+1}$

7. The velocity of a small ball of mass M and density d , when dropped in a container filled with glycerine becomes constant after some time. If the density of glycerine is $\frac{d}{2}$, then the viscous force acting on the ball will be :


- (1) $\frac{3}{2}Mg$
- (2) $2Mg$
- (3) $\frac{Mg}{2}$
- (4) Mg

O3

8. एक 'R' त्रिज्या की मोटी धारावाही केबिल में धारा 'I' इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबिल के कारण चुम्बकीय क्षेत्र $B(r)$ का परिवर्तन केबिल अक्ष से 'r' दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है :




9. प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए। काँच का अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ है :




- (1) 45°
(2) 90°
(3) 60°
(4) 30°

4

A thick current carrying cable of radius 'R' carries current 'I' uniformly distributed across its cross-section. The variation of magnetic field $B(r)$ due to the cable with the distance 'r' from the axis of the cable is represented by :



9. Find the value of the angle of emergence from the prism. Refractive index of the glass is $\sqrt{3}$.



- (1) 45°
(2) 90°
(3) 60°
(4) 30°

Hindi+English

10. एक स्कूरेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है :
 मुख्य पैमाने का पाठ्यांक = 0 मिलीमीटर
 वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक = 52 खाने
 दिया गया है कि मुख्य पैमाना पर 1 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाना के 100 खानों के संगत होता है। उपर्युक्त दिए गये प्रेक्षणों से तार का व्यास है :
 (1) 0.26 से.मी.
 (2) 0.052 से.मी.
 (3) 0.52 से.मी.
 (4) 0.026 से.मी.
11. एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक, प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के दो खण्डों में टूटता है। अखन्डित तथा खन्डित नाभिकों की बन्धन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 7.6 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) तथा 8.5 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट (MeV) है। प्रक्रम में कुल प्राप्त बन्धन ऊर्जा होती है :
 (1) 804 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
 (2) 216 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
 (3) 0.9 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
 (4) 9.4 मेगाइलेक्ट्रॉन वोल्ट
12. एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किग्रा/से. की दर से 60 मी. ऊँचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारम्भिक निवेशी ऊर्जा के 10 प्रतिशत की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है ?
 ($g = 10 \text{ मी./से.}^2$)
 (1) 12.3 किलोवाट
 (2) 7.0 किलोवाट
 (3) 10.2 किलोवाट
 (4) 8.1 किलोवाट
13. समान अक्ष के अनुदिश 'd' दूरी पर एक 20 से.मी. फोकस दूरी का उत्तल लेन्स 'A' तथा 5 से.मी. फोकस दूरी का अवतल लेन्स 'B' रखे हैं। यदि 'A' पर आपतित समान्तर प्रकाश पुन्ज, 'B' से निकलने पर भी समान्तर पुन्ज रहती हैं, तो दूरी 'd' से.मी. में होगी :
 (1) 50
 (2) 30
 (3) 25
 (4) 15
14. एक बहुत फोकस दूरी तथा बहुत द्वारक का लेन्स दूरदर्शी के अभिदृश्यक के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि :
 (1) एक बहुत द्वारक गुणता तथा दृश्यता के लिए योगदान करता है।
 (2) एक बहुत क्षेत्रफल का अभिदृश्यक उपयुक्त प्रकाश संग्रहण क्षमता का कारक होता है।
 (3) एक बहुत द्वारक उत्तम विभेदन प्रदान करता है।
 (4) उपर्युक्त में सभी।


10. A screw gauge gives the following readings when used to measure the diameter of a wire
 Main scale reading : 0 mm
 Circular scale reading : 52 divisions
 Given that 1 mm on main scale corresponds to 100 divisions on the circular scale. The diameter of the wire from the above data is :
 (1) 0.26 cm
 (2) 0.052 cm
 (3) 0.52 cm
 (4) 0.026 cm
11. A nucleus with mass number 240 breaks into two fragments each of mass number 120, the binding energy per nucleon of unfragmented nuclei is 7.6 MeV while that of fragments is 8.5 MeV. The total gain in the Binding Energy in the process is :
 (1) 804 MeV
 (2) 216 MeV
 (3) 0.9 MeV
 (4) 9.4 MeV
12. Water falls from a height of 60 m at the rate of 15 kg/s to operate a turbine. The losses due to frictional force are 10% of the input energy. How much power is generated by the turbine ?
 ($g = 10 \text{ m/s}^2$)
 (1) 12.3 kW
 (2) 7.0 kW
 (3) 10.2 kW
 (4) 8.1 kW
13. A convex lens 'A' of focal length 20 cm and a concave lens 'B' of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance 'd' between them. If a parallel beam of light falling on 'A' leaves 'B' as a parallel beam, then the distance 'd' in cm will be :
 (1) 50
 (2) 30
 (3) 25
 (4) 15
14. A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope since :
 (1) a large aperture contributes to the quality and visibility of the images.
 (2) a large area of the objective ensures better light gathering power.
 (3) a large aperture provides a better resolution.
 (4) all of the above.

15. n-टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना p-टाइप अर्धचालक में कोटर की सांद्रता है। दोनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। दोनों में धाराओं के अनुपात की तुलना कीजिए।
- n-टाइप में धारा > p-टाइप में धारा से
 - p-टाइप में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, केवल n-टाइप में धारा प्रवाहित होगी
 - n-टाइप में धारा = p-टाइप में धारा
 - p-टाइप में धारा > n-टाइप में धारा से
16. एक वस्तु 'n' आवृत्ति से सरल आवर्त गति करती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति है :
- $3n$
 - $4n$
 - n
 - $2n$
17. एक कप काफी 't' मिनट में 90°C से 80°C तक ठंडी होती है, जब कमरे का ताप 20°C है। उसी कमरे के ताप पर समान तरह के कप में काफी को 80°C से 60°C तक ठंडा करने में समय लगा होगा :
- $\frac{10}{13}t$
 - $\frac{5}{13}t$
 - $\frac{13}{10}t$
 - $\frac{13}{5}t$
18. एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट वि.वा.ब. की एक सेल 36 से.मी. तार के लम्बाई पर संतुलित बिन्दु देती है। यदि 2.5 वोल्ट वि.वा.ब. वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है, तो तार के किस लम्बाई पर संतुलित बिन्दु प्राप्त होगा ?
- 64 से.मी.
 - 62 से.मी.
 - 60 से.मी.
 - 21.6 से.मी.
19. समान लम्बाई, समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समान्तर क्रम में जुड़े चार तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा ?
- 1 ओम
 - 4 ओम
 - 0.25 ओम
 - 0.5 ओम

15. The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type semiconductor. An external field (electric) is applied across each of them. Compare the currents in them.
- current in n-type > current in p-type.
 - No current will flow in p-type, current will only flow in n-type.
 - current in n-type = current in p-type.
 - current in p-type > current in n-type.
16. A body is executing simple harmonic motion with frequency 'n', the frequency of its potential energy is :
- $3n$
 - $4n$
 - n
 - $2n$
17. A cup of coffee cools from 90°C to 80°C in t minutes, when the room temperature is 20°C . The time taken by a similar cup of coffee to cool from 80°C to 60°C at a room temperature same at 20°C is :
- $\frac{10}{13}t$
 - $\frac{5}{13}t$
 - $\frac{13}{10}t$
 - $\frac{13}{5}t$
18. In a potentiometer circuit a cell of EMF 1.5 V gives balance point at 36 cm length of wire. If another cell of EMF 2.5 V replaces the first cell, then at what length of the wire, the balance point occurs ?
- 64 cm
 - 62 cm
 - 60 cm
 - 21.6 cm
19. The effective resistance of a parallel connection that consists of four wires of equal length, equal area of cross-section and same material is 0.25Ω . What will be the effective resistance if they are connected in series ?
- 1Ω
 - 4Ω
 - 0.25Ω
 - 0.5Ω


20. एक रेडियोसक्रिय नाभिक ${}^A_Z X$ स्वतः विघटित होता है ${}^A_Z X \rightarrow {}^{Z-1}B \rightarrow {}^{Z-3}C \rightarrow {}^{Z-2}D$ क्रम में, जहाँ Z तत्व X का परमाणु संख्या है। क्रम में विघटित सम्भव कण हैं, क्रमशः :
- β^+, α, β^-
 - β^-, α, β^+
 - α, β^-, β^+
 - α, β^+, β^-

21. चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यह किस दिशा में गति करेगा ?




- बाँयीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- दायीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- बाँयीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- दायीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।

22. दिखाये गये चित्र के अनुसार एक L प्रेरकत्व का प्रेरक, एक C धारिता का धारित्र तथा एक 'R' प्रतिरोध का प्रतिरोधक 'V' वोल्ट विभवान्तर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। L, C, R पर विभवान्तर क्रमशः 40 वोल्ट, 10 वोल्ट तथा 40 वोल्ट हैं। LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाहित धारा $10\sqrt{2}$ एम्पियर है। परिपथ का प्रतिबाधा है :



- 4 ओम
- 5 ओम
- $4\sqrt{2}$ ओम
- $5/\sqrt{2}$ ओम

23. दिए गये संयोजन में तुल्य धारिता है :




- $C/2$
- $3C/2$
- $3C$
- $2C$

20. A radioactive nucleus ${}^A_Z X$ undergoes spontaneous decay in the sequence ${}^A_Z X \rightarrow {}^{Z-1}B \rightarrow {}^{Z-3}C \rightarrow {}^{Z-2}D$, where Z is the atomic number of element X. The possible decay particles in the sequence are :


- β^+, α, β^-
- β^-, α, β^+
- α, β^-, β^+
- α, β^+, β^-

21. A dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move ?




- towards the left as its potential energy will decrease.
- towards the right as its potential energy will increase.
- towards the left as its potential energy will increase.
- towards the right as its potential energy will decrease.

22. An inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C and a resistor of resistance 'R' are connected in series to an ac source of potential difference 'V' volts as shown in figure. Potential difference across L, C and R is 40 V, 10 V and 40 V, respectively. The amplitude of current flowing through LCR series circuit is $10\sqrt{2}$ A. The impedance of the circuit is :



- 4Ω
- 5Ω
- $4\sqrt{2} \Omega$
- $5/\sqrt{2} \Omega$

23. The equivalent capacitance of the combination shown in the figure is :



- $C/2$
- $3C/2$
- $3C$
- $2C$

24. निम्नलिखित कथनों (A) तथा (B) पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर को चिह्नित कीजिए।
- (A) एक जेनर डायोड उल्कम अभिनति में जुड़ा है, जब विभव नियन्त्रक की तरह प्रयुक्त होता है।
- (B) p-n सन्धि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है।
- (A) सत्य है परन्तु (B) गलत है।
 - (A) गलत है परन्तु (B) सत्य है।
 - दोनों (A) तथा (B) सत्य हैं।
 - दोनों (A) तथा (B) गलत हैं।
25. x -दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र (E) तथा चुम्बकीय क्षेत्र (B) की सही सम्भव दिशाओं को प्रदर्शित करता है?
- $\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
 - $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} + \hat{k}$
 - $\hat{j} + \hat{k}, \hat{j} + \hat{k}$
 - $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
26. एकवर्णी 600 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से औसतन प्रति सेकण्ड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी जब वह 3.3×10^{-3} वाट शक्ति उत्सर्जित करता है :
- ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ जूल \times से.)
- 10^{16}
 - 10^{15}
 - 10^{18}
 - 10^{17}
27. एक समान्तर प्लेट धारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र \vec{E} है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 'd' तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 'A' हो तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा है : (ϵ_0 = निर्वात की विद्युतशीलता)
- $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$
 - $\frac{E^2 Ad}{\epsilon_0}$
 - $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$
 - $\epsilon_0 EAd$
28. दिए गये प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत $V = V_0 \sin \omega t$ से 'C' धारित्र का एक धारित्र जुड़ा है। धारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा होगी :
- $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \sin \omega t$
 - $I_d = V_0 \omega C \sin \omega t$
 - $I_d = V_0 \omega C \cos \omega t$
 - $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \cos \omega t$

24. Consider the following statements (A) and (B) and identify the **correct** answer.
- (A) A zener diode is connected in reverse bias, when used as a voltage regulator.
- (B) The potential barrier of p-n junction lies between 0.1 V to 0.3 V.
- (A) is correct and (B) is incorrect.
 - (A) is incorrect but (B) is correct.
 - (A) and (B) both are correct.
 - (A) and (B) both are incorrect.
25. For a plane electromagnetic wave propagating in x -direction, which one of the following combination gives the correct possible directions for electric field (E) and magnetic field (B) respectively ?
- $\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
 - $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} + \hat{k}$
 - $\hat{j} + \hat{k}, \hat{j} + \hat{k}$
 - $-\hat{j} + \hat{k}, -\hat{j} - \hat{k}$
26. The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nm, when it delivers the power of 3.3×10^{-3} watt will be : ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ Js)
- 10^{16}
 - 10^{15}
 - 10^{18}
 - 10^{17}
27. A parallel plate capacitor has a uniform electric field ' \vec{E} ' in the space between the plates. If the distance between the plates is 'd' and the area of each plate is 'A', the energy stored in the capacitor is : (ϵ_0 = permittivity of free space)
- $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 Ad$
 - $\frac{E^2 Ad}{\epsilon_0}$
 - $\frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$
 - $\epsilon_0 EAd$
28. A capacitor of capacitance 'C', is connected across an ac source of voltage V , given by $V = V_0 \sin \omega t$. The displacement current between the plates of the capacitor, would then be given by :
- $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \sin \omega t$
 - $I_d = V_0 \omega C \sin \omega t$
 - $I_d = V_0 \omega C \cos \omega t$
 - $I_d = \frac{V_0}{\omega C} \cos \omega t$

29. R_1 तथा R_2 क्रिन्या के दो आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्वों (σ_1/σ_2) का अनुपात होता है :

(1) $\sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}$

(2) $\frac{R_1^2}{R_2^2}$

(3) $\frac{R_1}{R_2}$

(4) $\frac{R_2}{R_1}$

30. नगण्य कार्य फलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर ' λ ' तरंगदैर्घ्य की एक विद्युतचुम्बकीय तरंग आपत्ति होती है। यदि सतह से उत्सर्जित 'm' द्रव्यमान के फोटोइलेक्ट्रॉन की डी-ब्राली तरंगदैर्घ्य λ_d हो, तो :

(1) $\lambda = \left(\frac{2mc}{h}\right)\lambda_d^2$

(2) $\lambda = \left(\frac{2h}{mc}\right)\lambda_d^2$

(3) $\lambda = \left(\frac{2m}{hc}\right)\lambda_d^2$

(4) $\lambda_d = \left(\frac{2mc}{h}\right)\lambda^2$

31. एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 से.मी. खिंची होती है। जब 2 कि.ग्रा. द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है, तो दोलन का आवर्तकाल होता है :

(1) 3.14 सेकण्ड


(2) 0.628 सेकण्ड

(3) 0.0628 सेकण्ड

(4) 6.28 सेकण्ड

32. दिखाए गये अनंत लम्बाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के समान्तर एक इलेक्ट्रॉन 10^5 मी./से. के चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लम्बवत् दूरी 20 से.मी. है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किये जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए।

Electron $v = 10^5$ m/s



- (1) $4\pi \times 10^{-20}$ न्यूटन
 (2) 8×10^{-20} न्यूटन
 (3) 4×10^{-20} न्यूटन
 (4) $8\pi \times 10^{-20}$ न्यूटन

29. Two charged spherical conductors of radius R_1 and R_2 are connected by a wire. Then the ratio of surface charge densities of the spheres (σ_1/σ_2) is :

(1) $\sqrt{\left(\frac{R_1}{R_2}\right)}$

(2) $\frac{R_1^2}{R_2^2}$

(3) $\frac{R_1}{R_2}$

(4) $\frac{R_2}{R_1}$

30. An electromagnetic wave of wavelength ' λ ' is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If 'm' mass is of photoelectron emitted from the surface has de-Broglie wavelength λ_d , then :

(1) $\lambda = \left(\frac{2mc}{h}\right)\lambda_d^2$

(2) $\lambda = \left(\frac{2h}{mc}\right)\lambda_d^2$

(3) $\lambda = \left(\frac{2m}{hc}\right)\lambda_d^2$

(4) $\lambda_d = \left(\frac{2mc}{h}\right)\lambda^2$

31. A spring is stretched by 5 cm by a force 10 N. The time period of the oscillations when a mass of 2 kg is suspended by it is :

(1) 3.14 s


(2) 0.628 s

(3) 0.0628 s

(4) 6.28 s

32. An infinitely long straight conductor carries a current of 5 A as shown. An electron is moving with a speed of 10^5 m/s parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 cm at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant.

Electron $v = 10^5$ m/s



- (1) $4\pi \times 10^{-20}$ N
 (2) 8×10^{-20} N
 (3) 4×10^{-20} N
 (4) $8\pi \times 10^{-20}$ N

33. एक रेडियोसक्रिय न्यूक्लाइड की अर्धआयु 100 घंटे हैं। 150 घन्टे के बाद प्रारम्भिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग होगा :

- (1) $\frac{2}{3}$
- (2) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$
- (3) $1/2$
- (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

34. स्तम्भ - I को स्तम्भ - II से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गये विकल्पों से सही सुमेलित को छाँटिए :

स्तम्भ - I	स्तम्भ - II
(A) गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग	(P) $\frac{1}{3} \text{ nm} \bar{v}^2$
(B) आदर्श गैस द्वारा आरोपित दबाव	(Q) $\sqrt{\frac{3 RT}{M}}$
(C) अणु की औसत गतिज ऊर्जा	(R) $\frac{5}{2} RT$
(D) 1 मोल द्विपरमाणुक गैस की कुल आन्तरिक ऊर्जा	(S) $\frac{3}{2} k_B T$
(1) (A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (R)	
(2) (A) - (R), (B) - (Q), (C) - (P), (D) - (S)	
(3) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)	
(4) (A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)	

35. यदि E तथा G क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं, तो $\frac{E}{G}$ की विमा होती है :

- (1) $[M] [L^0] [T^0]$
- (2) $[M^2] [L^{-2}] [T^{-1}]$
- (3) $[M^2] [L^{-1}] [T^0]$
- (4) $[M] [L^{-1}] [T^{-1}]$

अनुभाग - B (भौतिकी)

36. 'M' द्रव्यमान तथा 'R' त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90° सेक्टर के संगत एक चाप (आर्क) हटा दिया जाता है। बचे हुए छल्ले के भाग का जड़त्व आधूर्ण छल्ले के केन्द्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लम्बवत् अक्ष के सापेक्ष MR^2 का 'K' गुना है। 'K' का मान है :

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{8}$
- (3) $\frac{3}{4}$
- (4) $\frac{7}{8}$

33. The half-life of a radioactive nuclide is 100 hours. The fraction of original activity that will remain after 150 hours would be :

- (1) $\frac{2}{3}$
- (2) $\frac{2}{3\sqrt{2}}$
- (3) $1/2$
- (4) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$

34. Match Column - I and Column - II and choose the correct match from the given choices.

Column - I	Column - II
(A) Root mean square speed of gas molecules	(P) $\frac{1}{3} \text{ nm} \bar{v}^2$
(B) Pressure exerted by ideal gas	(Q) $\sqrt{\frac{3 RT}{M}}$
(C) Average kinetic energy of a molecule	(R) $\frac{5}{2} RT$
(D) Total internal energy of 1 mole of a diatomic gas	(S) $\frac{3}{2} k_B T$
(1) (A) - (Q), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (R)	
(2) (A) - (R), (B) - (Q), (C) - (P), (D) - (S)	
(3) (A) - (R), (B) - (P), (C) - (S), (D) - (Q)	
(4) (A) - (Q), (B) - (R), (C) - (S), (D) - (P)	

35. If E and G respectively denote energy and gravitational constant, then $\frac{E}{G}$ has the dimensions of :

- (1) $[M] [L^0] [T^0]$
- (2) $[M^2] [L^{-2}] [T^{-1}]$
- (3) $[M^2] [L^{-1}] [T^0]$
- (4) $[M] [L^{-1}] [T^{-1}]$

Section - B (Physics)

36. From a circular ring of mass 'M' and radius 'R' an arc corresponding to a 90° sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the centre of the ring and perpendicular to the plane of the ring is 'K' times MR^2 . Then the value of 'K' is :

- (1) $\frac{1}{4}$
- (2) $\frac{1}{8}$
- (3) $\frac{3}{4}$
- (4) $\frac{7}{8}$

37. एक $12a$ लम्बाई तथा प्रतिरोध 'R' का समान चालकीय तार,
 (i) 'a' भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा
 (ii) 'a' भुजा के वर्ग के आकार की धारावाही कुण्डली में
 मोड़ा जाता है।

प्रत्येक कुण्डली का चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्रमशः है :

- (1) $3 Ia^2$ तथा $4 Ia^2$
- (2) $4 Ia^2$ तथा $3 Ia^2$
- (3) $\sqrt{3} Ia^2$ तथा $3 Ia^2$
- (4) $3 Ia^2$ तथा Ia^2

38. R_1 तथा R_2 क्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेन्द्रित रखी हैं। यदि $R_1 > R_2$, तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व 'M' समानुपाती होता है :

- (1) $\frac{R_1^2}{R_2}$ के
- (2) $\frac{R_2^2}{R_1}$ के
- (3) $\frac{R_1}{R_2}$ के
- (4) $\frac{R_2}{R_1}$ के

39. एक 0.15 किं.ग्रा. की गेंद 10 मी. ऊँचाई से गिरायी जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊँचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाये गये आवेग का परिमाण होता है, लगभग : ($g = 10 \text{ मी./से.}^2$)

- (1) $2.1 \text{ किं.ग्रा.} \times \text{मी. / से.}$
- (2) $1.4 \text{ किं.ग्रा.} \times \text{मी. / से.}$
- (3) $0 \text{ किं.ग्रा.} \times \text{मी. / से.}$
- (4) $4.2 \text{ किं.ग्रा.} \times \text{मी. / से.}$

40. एक अपचायी ट्रान्सफार्मर जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा है, 11 वोल्ट, 44 वाट लैम्प पर कार्य करता है। ट्रान्सफार्मर में शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए, प्रारम्भिक परिपथ में धारा क्या होती है ?

- (1) 2 एम्पियर
- (2) 4 एम्पियर
- (3) 0.2 एम्पियर
- (4) 0.4 एम्पियर

41. समान साइज की 27 बूँदें प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती हैं। वे मिलकर एक बड़ी बूँद बनाती हैं। बड़ी बूँद के विभव की गणना कीजिए।

- (1) 1520 वोल्ट
- (2) 1980 वोल्ट
- (3) 660 वोल्ट
- (4) 1320 वोल्ट

37. A uniform conducting wire of length $12a$ and resistance 'R' is wound up as a current carrying coil in the shape of,

- (i) an equilateral triangle of side 'a'.
- (ii) a square of side 'a'.

The magnetic dipole moments of the coil in each case respectively are :

- (1) $3 Ia^2$ and $4 Ia^2$
- (2) $4 Ia^2$ and $3 Ia^2$
- (3) $\sqrt{3} Ia^2$ and $3 Ia^2$
- (4) $3 Ia^2$ and Ia^2

38. Two conducting circular loops of radii R_1 and R_2 are placed in the same plane with their centres coinciding. If $R_1 > R_2$, the mutual inductance M between them will be directly proportional to :

- (1) $\frac{R_1^2}{R_2}$
- (2) $\frac{R_2^2}{R_1}$
- (3) $\frac{R_1}{R_2}$
- (4) $\frac{R_2}{R_1}$

39. A ball of mass 0.15 kg is dropped from a height 10 m, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is ($g = 10 \text{ m/s}^2$) nearly :

- (1) 2.1 kg m/s
- (2) 1.4 kg m/s
- (3) 0 kg m/s
- (4) 4.2 kg m/s

40. A step down transformer connected to an ac mains supply of 220 V is made to operate at 11 V, 44 W lamp. Ignoring power losses in the transformer, what is the current in the primary circuit ?



- (1) 2 A
- (2) 4 A
- (3) 0.2 A
- (4) 0.4 A

41. Twenty seven drops of same size are charged at 220 V each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop.

- (1) 1520 V
- (2) 1980 V
- (3) 660 V
- (4) 1320 V

O3

42. दिये गये परिपथ में, निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरों A, B तथा C पर अनुप्रयुक्त किये जाते हैं। सिरे y पर निर्गत सिग्नल क्या होगा ?



- (1) 0 V
- (2) 5 V
- (3) 0 V
- (4) 5 V

43. एक 'm' द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग $v = kV_e$ ($k < 1$) से प्रक्षेपित किया जाता है।

(V_e = पलायन वेग)



कण के द्वारा सतह के ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊँचाई है :

- (1) $\frac{R^2 k}{1+k}$
- (2) $\frac{Rk^2}{1-k^2}$
- (3) $R\left(\frac{k}{1-k}\right)^2$
- (4) $R\left(\frac{k}{1+k}\right)^2$

12

Hindi+English

42. For the given circuit, the input digital signals are applied at the terminals A, B and C. What would be the output at the terminal y ?



- (1) 0 V
- (2) 5 V
- (3) 0 V
- (4) 5 V

43. A particle of mass 'm' is projected with a velocity $v = kV_e$ ($k < 1$) from the surface of the earth.

(V_e = escape velocity)

The maximum height above the surface reached by the particle is :

- (1) $\frac{R^2 k}{1+k}$
- (2) $\frac{Rk^2}{1-k^2}$
- (3) $R\left(\frac{k}{1-k}\right)^2$
- (4) $R\left(\frac{k}{1+k}\right)^2$

44. एक कार विरामावस्था से प्रारम्भ करती है तथा 5 मी./से.² से त्वरित होती है। t = 4 सेकण्ड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की के बाहर गिरायी जाती है। t = 6 सेकण्ड पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या होता है? (दिया है : g = 10 मी./से.²)

- (1) $20\sqrt{2}$ मी./से., 0
- (2) $20\sqrt{2}$ मी./से., 10 मी./से.²
- (3) 20 मी./से., 5 मी./से.²
- (4) 20 मी./से., 0

45. एक श्रेणी LCR परिपथ में 5.0 हेनरी का प्रेरक, 80 माइक्रो फैराड का धारित्र तथा 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानान्तरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ होगी :

- (1) 46 रेडियन/से., 54 रेडियन/से.
- (2) 42 रेडियन/से., 58 रेडियन/से.
- (3) 25 रेडियन/से., 75 रेडियन/से.
- (4) 50 रेडियन/से., 25 रेडियन/से.

46. एक कण R क्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में T समय लेता है।

यदि यही कण क्षेत्रिज से उसी चाल से कोण 'θ' पर प्रक्षेपित किया जाए, तो 4R के बराबर अधिकतम ऊँचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण 'θ' दिया जाता है :

$$(1) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{g T^2} \right)^{1/2}$$

$$(2) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{2gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$

$$(3) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$

$$(4) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{1/2}$$

- A car starts from rest and accelerates at 5 m/s². At t = 4 s, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t = 6 s ? (Take g = 10 m/s²)

- (1) $20\sqrt{2}$ m/s, 0
- (2) $20\sqrt{2}$ m/s, 10 m/s²
- (3) 20 m/s, 5 m/s²
- (4) 20 m/s, 0

45. A series LCR circuit containing 5.0 H inductor, 80 μF capacitor and 40 Ω resistor is connected to 230 V variable frequency ac source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be :

- (1) 46 rad/s and 54 rad/s
- (2) 42 rad/s and 58 rad/s
- (3) 25 rad/s and 75 rad/s
- (4) 50 rad/s and 25 rad/s

46. A particle moving in a circle of radius R with a uniform speed takes a time T to complete one revolution.

If this particle were projected with the same speed at an angle 'θ' to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4R. The angle of projection, θ, is then given by :


$$(1) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{g T^2} \right)^{1/2}$$

$$(2) \theta = \sin^{-1} \left(\frac{2gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$

$$(3) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{gT^2}{\pi^2 R} \right)^{1/2}$$


$$(4) \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\pi^2 R}{gT^2} \right)^{1/2}$$

47. दिए गये परिपथ के अनुसार r_1 , r_2 तथा r_3 प्रतिरोधों वाले तीन प्रतिरोधक जोड़े गये हैं। परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं $\frac{i_3}{i_1}$ का अनुपात है :




- (1) $\frac{r_1}{r_1 + r_2}$
- (2) $\frac{r_2}{r_1 + r_3}$
- (3) $\frac{r_1}{r_2 + r_3}$
- (4) $\frac{r_2}{r_2 + r_3}$

48. 30 से.मी. फोकस दूरी के उत्तल लेन्स से 60 से.मी. दूरी पर एक बिन्दु वस्तु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण, मुख्य अक्ष के लम्बवत् तथा इससे 40 से.मी. दूरी पर रखा जाता है, तो अन्तिम प्रतिबिम्ब पाया जायेगा दूरी :




- (1) 30 से.मी. समतल दर्पण से, यह आभासी प्रतिबिम्ब होगा।
- (2) 20 से.मी. समतल दर्पण से, यह आभासी प्रतिबिम्ब होगा।
- (3) 20 से.मी. लेन्स से, यह वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा।
- (4) 30 से.मी. लेन्स से, यह वास्तविक प्रतिबिम्ब होगा।

49. एक 200 से.मी. लम्बाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान छड़ एक वेज के 40 से.मी. निशान पर संतुलित होती है। एक 2 कि.ग्रा. का द्रव्यमान छड़ से 20 से.मी. पर निलम्बित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान 'm' छड़ से 160 से.मी. निशान से निलम्बित किया जाता है। ज्ञात कीजिए 'm' का मान जिससे छड़ संतुलन अवस्था में रहे। ($g = 10 \text{ मी./से.}^2$)




- (1) $\frac{1}{6}$ कि.ग्रा.
- (2) $\frac{1}{12}$ कि.ग्रा.
- (3) $\frac{1}{2}$ कि.ग्रा.
- (4) $\frac{1}{3}$ कि.ग्रा.

47. Three resistors having resistances r_1 , r_2 and r_3 are connected as shown in the given circuit. The ratio $\frac{i_3}{i_1}$ of currents in terms of resistances used in the circuit is :




- (1) $\frac{r_1}{r_1 + r_2}$
- (2) $\frac{r_2}{r_1 + r_3}$
- (3) $\frac{r_1}{r_2 + r_3}$
- (4) $\frac{r_2}{r_2 + r_3}$

48. A point object is placed at a distance of 60 cm from a convex lens of focal length 30 cm. If a plane mirror were put perpendicular to the principal axis of the lens and at a distance of 40 cm from it, the final image would be formed at a distance of :



- (1) 30 cm from the plane mirror, it would be a virtual image.
- (2) 20 cm from the plane mirror, it would be a virtual image.
- (3) 20 cm from the lens, it would be a real image.
- (4) 30 cm from the lens, it would be a real image.

49. A uniform rod of length 200 cm and mass 500 g is balanced on a wedge placed at 40 cm mark. A mass of 2 kg is suspended from the rod at 20 cm and another unknown mass 'm' is suspended from the rod at 160 cm mark as shown in the figure. Find the value of 'm' such that the rod is in equilibrium. ($g = 10 \text{ m/s}^2$)



- (1) $\frac{1}{6}$ kg
- (2) $\frac{1}{12}$ kg
- (3) $\frac{1}{2}$ kg
- (4) $\frac{1}{3}$ kg

50. गुणकफल

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$= q \vec{v} \times \left(\vec{B} \hat{i} + \vec{B} \hat{j} + \vec{B}_0 \hat{k} \right)$$

में, $q = 1$ तथा $\vec{v} = 2 \hat{i} + 4 \hat{j} + 6 \hat{k}$ और
 $\vec{F} = 4 \hat{i} - 20 \hat{j} + 12 \hat{k}$ के लिए

\vec{B} का सम्पूर्ण व्यंजक क्या होगा ?


- (1) $8 \hat{i} + 8 \hat{j} - 6 \hat{k}$
- (2) $6 \hat{i} + 6 \hat{j} - 8 \hat{k}$
- (3) $-8 \hat{i} - 8 \hat{j} - 6 \hat{k}$
- (4) $-6 \hat{i} - 6 \hat{j} - 8 \hat{k}$

अनुभाग - A (स्थायनशास्त्र)

51. मध्यावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है :

- (1) C_3H_6O
- (2) $C_4H_{10}O$
- (3) C_5H_{12}
- (4) C_3H_8O

52. 2,6-डाइमेथिल-डेक-4-ईन की सही संरचना है :



53. 'C-X' बंध की बंध एन्थैलपी का सही क्रम है :

- (1) $CH_3 - F < CH_3 - Cl > CH_3 - Br > CH_3 - I$
- (2) $CH_3 - Cl > CH_3 - F > CH_3 - Br > CH_3 - I$
- (3) $CH_3 - F < CH_3 - Cl < CH_3 - Br < CH_3 - I$
- (4) $CH_3 - F > CH_3 - Cl > CH_3 - Br > CH_3 - I$

50. In the product

$$\vec{F} = q \left(\vec{v} \times \vec{B} \right)$$

$$= q \vec{v} \times \left(\vec{B} \hat{i} + \vec{B} \hat{j} + \vec{B}_0 \hat{k} \right)$$

For $q = 1$ and $\vec{v} = 2 \hat{i} + 4 \hat{j} + 6 \hat{k}$ and

$$\vec{F} = 4 \hat{i} - 20 \hat{j} + 12 \hat{k}$$

What will be the complete expression for \vec{B} ?


- (1) $8 \hat{i} + 8 \hat{j} - 6 \hat{k}$
- (2) $6 \hat{i} + 6 \hat{j} - 8 \hat{k}$
- (3) $-8 \hat{i} - 8 \hat{j} - 6 \hat{k}$
- (4) $-6 \hat{i} - 6 \hat{j} - 8 \hat{k}$

Section - A (Chemistry)

51. The compound which shows metamerism is :

- (1) C_3H_6O
- (2) $C_4H_{10}O$
- (3) C_5H_{12}
- (4) C_3H_8O

52. The correct structure of 2,6-Dimethyl-dec-4-ene is :



53. The correct sequence of bond enthalpy of 'C-X' bond is :

- (1) $CH_3 - F < CH_3 - Cl > CH_3 - Br > CH_3 - I$
- (2) $CH_3 - Cl > CH_3 - F > CH_3 - Br > CH_3 - I$
- (3) $CH_3 - F < CH_3 - Cl < CH_3 - Br < CH_3 - I$
- (4) $CH_3 - F > CH_3 - Cl > CH_3 - Br > CH_3 - I$

54. Zr ($Z = 40$) एवं Hf ($Z = 72$) के परमाणिक एवं आयनिक त्रिज्याएँ समान हैं। इसका कारण है :
- लैन्थेनॉयड आकुंचन
 - दोनों के रासायनिक गुणधर्म समान हैं
 - दोनों समान समूह के सदस्य हैं
 - विकर्ण सम्बन्ध
55. किसी षट्कोणीय आद्य (हेक्सागोनल प्रिमिटिव) एकक कोष्ठिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हेतु सही विकल्प है :
- 2, 1
 - 12, 6
 - 8, 4
 - 6, 12
56. BF_3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केन्द्रीय परमाणु का संकरण एवं उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्रमशः :
- sp^2 एवं 6
 - sp^2 एवं 8
 - sp^3 एवं 4
 - sp^3 एवं 6
57. निम्न विलयनों को बनाया गया :
250 ml जल में 10 g ग्लूकोस ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) को घोलकर (P_1), 250 ml जल में 10 g यूरिया ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) को घोलकर (P_2) एवं 250 ml जल में 10 g सुक्रोस ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) को घोलकर (P_3)। इन विलयनों के परासरण दार्बों के घटते क्रम का सही विकल्प है :
- $P_2 > P_3 > P_1$
 - $P_3 > P_1 > P_2$
 - $P_2 > P_1 > P_3$
 - $P_1 > P_2 > P_3$
58. हाइड्रोजन का एक रेडियोएक्टिव समस्थानिक, ट्राइट्रियम, निम्न में से किस कण का उत्सर्जन करता है ?
- गामा (γ)
 - न्यूट्रॉन (n)
 - बीटा (β^-)
 - अल्फा (α)
59. एथिलीन डाइऐमीनट्राएसीटेट (EDTA) आयन है :
- दो “N” दाता परमाणुओं के साथ द्विदंतुर लिगन्ड
 - तीन “N” दाता परमाणुओं के साथ त्रिदंतुर लिगन्ड
 - चार “O” एवं दो “N” दाता परमाणुओं के साथ षट्दंतुर लिगन्ड
 - एकदंतुर लिगन्ड
60. निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है ?
- ऐसीटोन $\xrightarrow{\substack{(i) \text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}, \text{ शुष्क ईथर} \\ (ii) \text{H}_2\text{O}, \text{ H}^+}}$ उत्पाद
- पेन्टेन-3-ऑल
 - 2-मेथिल ब्यूटेन-2-ऑल
 - 2-मेथिल प्रोपेन-2-ऑल
 - पेन्टेन-2-ऑल

54. Zr ($Z = 40$) and Hf ($Z = 72$) have similar atomic and ionic radii because of :
- lanthanoid contraction
 - having similar chemical properties
 - belonging to same group
 - diagonal relationship
55. Right option for the number of tetrahedral and octahedral voids in hexagonal primitive unit cell are :
- 2, 1
 - 12, 6
 - 8, 4
 - 6, 12
56. BF_3 is planar and electron deficient compound. Hybridization and number of electrons around the central atom, respectively are :
- sp^2 and 6
 - sp^2 and 8
 - sp^3 and 4
 - sp^3 and 6
57. The following solutions were prepared by dissolving 10 g of glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) in 250 ml of water (P_1), 10 g of urea ($\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$) in 250 ml of water (P_2) and 10 g of sucrose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) in 250 ml of water (P_3). The right option for the decreasing order of osmotic pressure of these solutions is :
- $P_2 > P_3 > P_1$
 - $P_3 > P_1 > P_2$
 - $P_2 > P_1 > P_3$
 - $P_1 > P_2 > P_3$
58. Tritium, a radioactive isotope of hydrogen, emits which of the following particles ?
- Gamma (γ)
 - Neutron (n)
 - Beta (β^-)
 - Alpha (α)
59. Ethylene diaminetetraacetate (EDTA) ion is :
- Bidentate ligand with two “N” donor atoms
 - Tridentate ligand with three “N” donor atoms
 - Hexadentate ligand with four “O” and two “N” donor atoms
 - Unidentate ligand
60. What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction ?
- Acetone $\xrightarrow{\substack{(i) \text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}, \text{ dry Ether} \\ (ii) \text{H}_2\text{O}, \text{ H}^+}}$ Product
- pentan-3-ol
 - 2-methyl butan-2-ol
 - 2-methyl propan-2-ol
 - pentan-2-ol

61. 2-ब्रोमो पेन्टेन के विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेन्ट-2-इन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है :
- हॉफमैन नियम पर
 - हूकल नियम पर
 - सेटज़ेफ नियम पर
 - हुण्ड नियम पर
62. निम्न अभिक्रियाओं में से कौन धातु विस्थापन अभिक्रिया है ? सही विकल्प चुनें।
- $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
 - $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$
 - $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
 - $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \xrightarrow{\Delta} \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
63. निम्न में से कौन सा विकल्प एक मोल आदर्श गैस के लिए C_P एवं C_V के सही संबंध को व्यक्त करता है ?
- $C_P = RC_V$
 - $C_V = RC_P$
 - $C_P + C_V = R$
 - $C_P - C_V = R$
64. RBC की कमी, हीनता जनित रोग है :
- विटामिन B_1 की
 - विटामिन B_2 की
 - विटामिन B_{12} की
 - विटामिन B_6 की
65. निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित किया जाता है ?
- नोवोलेक
 - डेक्रॉन
 - टेफ्लॉन
 - नाइलॉन-66
66. एक कार्बनिक यौगिक में 78% (भार द्वारा) कार्बन एवं शेष प्रतिशत हाइड्रोजन की मात्रा है। इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प है : [परमाणु भार : C = 12, H = 1]
- CH_3
 - CH_4
 - CH
 - CH_2
67. ऐथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितीय कोण है :
- 60°
 - 0°
 - 120°
 - 180°
61. The major product formed in dehydrohalogenation reaction of 2-Bromo pentane is Pent-2-ene. This product formation is based on ?
- Hofmann Rule
 - Hückel's Rule
 - Saytzeff's Rule
 - Hund's Rule
62. Which of the following reactions is the metal displacement reaction ? Choose the right option.
- $\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2 \uparrow$
 - $2\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 \rightarrow 2\text{PbO} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2 \uparrow$
 - $2\text{KClO}_3 \xrightarrow{\Delta} 2\text{KCl} + 3\text{O}_2$
 - $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{Al} \xrightarrow{\Delta} \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
63. Which one among the following is the correct option for right relationship between C_P and C_V for one mole of ideal gas ?
- $C_P = RC_V$
 - $C_V = RC_P$
 - $C_P + C_V = R$
 - $C_P - C_V = R$
64. The RBC deficiency is deficiency disease of :
- Vitamin B_1
 - Vitamin B_2
 - Vitamin B_{12}
 - Vitamin B_6
65. Which one of the following polymers is prepared by addition polymerisation ?
- Novolac
 - Dacron
 - Teflon
 - Nylon-66
66. An organic compound contains 78% (by wt.) carbon and remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is : [Atomic wt. of C is 12, H is 1]
- CH_3
 - CH_4
 - CH
 - CH_2
67. Dihedral angle of least stable conformer of ethane is :
- 60°
 - 0°
 - 120°
 - 180°


68. सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I	सूची-II
(a) PCl_5	(i) वर्ग पिरामिडी
(b) SF_6	(ii) त्रिकोणीय समतलीय
(c) BrF_5	(iii) अष्टफलकीय
(d) BF_3	(iv) त्रिकोणीय द्विपिरामिडी

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
- (3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (4) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

69. निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है :



- (1) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \text{CH} - \underset{\substack{| \\ \text{Br}}}{\text{CH}} - \text{CH}_3 \end{array}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br} \end{array}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{COC}_6\text{H}_5 \end{array}$

70. निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर ढ्रव है?

- (1) आसवन
- (2) मंडल परिष्करण
- (3) विद्युत अपघटन
- (4) वर्णलेखिकी

71. उस यौगिक को पहचानें जो हिस्बर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है:

- (1) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{H}_2 \end{array}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{N} \left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \right) - \text{CH}_3 \end{array}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{O}_2 \end{array}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{H} - \text{CH}_3 \end{array}$


68. Match List - I with List - II.

List - I	List - II
(a) PCl_5	(i) Square pyramidal
(b) SF_6	(ii) Trigonal planar
(c) BrF_5	(iii) Octahedral
(d) BF_3	(iv) Trigonal bipyramidal

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)
- (3) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (4) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

69. The major product of the following chemical reaction is :



- (1) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \underset{\substack{| \\ \text{Br}}}{\text{CH}} - \text{CH}_3 \end{array}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CBr} - \text{CH}_2 - \text{CH}_3 \end{array}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{Br} \end{array}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ | \\ \text{CH} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O} - \text{COC}_6\text{H}_5 \end{array}$

70. Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature?

- (1) Distillation
- (2) Zone refining
- (3) Electrolysis
- (4) Chromatography

71. Identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali.

- (1) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{H}_2 \end{array}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \text{N} \left(\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array} \right) - \text{CH}_3 \end{array}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{O}_2 \end{array}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{CH}_2 \\ | \\ \text{CH}_3 - \ddot{\text{N}}\text{H} - \text{CH}_3 \end{array}$

72. कथन I :

अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है
 $\text{HF} \ll \text{HCl} \ll \text{HBr} \ll \text{HI}$.

कथन II :

जैसे-जैसे समूह में नीचे जाने पर तत्व F, Cl, Br, I का आकार बढ़ता जाता है वैसे-वैसे HF, HCl, HBr एवं HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है। अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
- (2) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
- (3) दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।
- (4) दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।

73. T (K) पर डाइमेथिलऐमीन का pK_b एवं ऐसीटिक अम्ल का pK_a मान क्रमशः 3.27 एवं 4.77 है। डाइमेथिलअमोनियम ऐसीटेट विलयन के pH का सही विकल्प है :

- (1) 7.75
- (2) 6.25
- (3) 8.50
- (4) 5.50

74. NaCl, HCl एवं CH_3COONa की अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.45, 426.16 एवं $91.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। अनंत तनुता पर CH_3COOH की मोलर चालकता है।

- (1) $698.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (2) $540.48 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (3) $201.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (4) $390.71 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$

75. “टिन्डल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।” सही विकल्प चुनें।

- (1) स्टार्च विलयन
- (2) यूरिया विलयन
- (3) NaCl विलयन
- (4) ग्लूकोस विलयन

76. कुल 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की अंतःकेन्द्रित एकक कोष्ठिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प है :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 7
- (4) 5

72. Statement I :

Acid strength increases in the order given as $\text{HF} \ll \text{HCl} \ll \text{HBr} \ll \text{HI}$.

Statement II :

As the size of the elements F, Cl, Br, I increases down the group, the bond strength of HF, HCl, HBr and HI decreases and so the acid strength increases.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) Statement I is correct but Statement II is false.
- (2) Statement I is incorrect but Statement II is true.
- (3) Both Statement I and Statement II are true.
- (4) Both Statement I and Statement II are false.

73. The pK_b of dimethylamine and pK_a of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T (K). The correct option for the pH of dimethylammonium acetate solution is :

- (1) 7.75
- (2) 6.25
- (3) 8.50
- (4) 5.50

74. The molar conductance of NaCl, HCl and CH_3COONa at infinite dilution are 126.45, 426.16 and $91.0 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively. The molar conductance of CH_3COOH at infinite dilution is. Choose the right option for your answer.

- (1) $698.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (2) $540.48 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (3) $201.28 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$
- (4) $390.71 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$


75. The right option for the statement “Tyndall effect is exhibited by”, is :

- (1) Starch solution
- (2) Urea solution
- (3) NaCl solution
- (4) Glucose solution

76. The correct option for the number of body centred unit cells in all 14 types of Bravais lattice unit cells is :

- (1) 2
- (2) 3
- (3) 7
- (4) 5


77. बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण चुनें जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब vs. आयतन को प्रदर्शित कर रहा हो :



78. निम्न में से असत्य कथन है :

- (1) लैथेनॉयड ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं।
- (2) एक्टिनॉयड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएँ हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित हैं।
- (3) लैथेनॉयड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनॉयड आकुंचन अधिक है।
- (4) अधिकांश त्रिसंयोजी लैथेनॉयड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं।

77. Choose the correct option for graphical representation of Boyle's law, which shows a graph of pressure vs. volume of a gas at different temperatures :




78. The **incorrect** statement among the following is :

- (1) Lanthanoids are good conductors of heat and electricity.
- (2) Actinoids are highly reactive metals, especially when finely divided.
- (3) Actinoid contraction is greater for element to element than Lanthanoid contraction.
- (4) Most of the trivalent Lanthanoid ions are colorless in the solid state.

79. उत्कृष्ट गैसों का नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है। उनसे सम्बन्धित असत्य कथन को पहचानें।

- उत्कृष्ट गैसों में दुर्बल परिक्षेपण बल होते हैं।
- उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी का मान उच्च धनात्मक होता है।
- उत्कृष्ट गैसें जल में अल्प विलेय हैं।
- उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं।

80. किसी अभिक्रिया $A \rightarrow B$ के लिए अभिक्रिया की एन्थैल्पी -4.2 kJ mol^{-1} एवं सक्रियण की एन्थैल्पी 9.6 kJ mol^{-1} है। अभिक्रिया के लिए सही स्थितिज ऊर्जा आरेख निम्न विकल्प में प्रदर्शित किया गया है :




81. निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन सहसंयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है ?

- मैग्नीशियम क्लोराइड
- बेरीलियम क्लोराइड
- कैल्शियम क्लोराइड
- स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड

79. Noble gases are named because of their inertness towards reactivity. Identify an **incorrect** statement about them.

- Noble gases have weak dispersion forces.
- Noble gases have large positive values of electron gain enthalpy.
- Noble gases are sparingly soluble in water.
- Noble gases have very high melting and boiling points.

80. For a reaction $A \rightarrow B$, enthalpy of reaction is -4.2 kJ mol^{-1} and enthalpy of activation is 9.6 kJ mol^{-1} . The correct potential energy profile for the reaction is shown in option.



81. Among the following alkaline earth metal halides, one which is covalent and soluble in organic solvents is :

- Magnesium chloride
- Beryllium chloride
- Calcium chloride
- Strontium chloride

82. वात्या भट्टी में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान है :

- (1) 1900 K तक
- (2) 5000 K तक
- (3) 1200 K तक
- (4) 2200 K तक

83. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I :

ऐस्पिरिन एवं पैरासिटामॉल स्वापक पीड़िहारी (नारकोटिक ऐनेल्जेसिक) वर्ग के हैं।

कथन II :

मॉर्फीन एवं हेरोइन अस्वापक पीड़िहारी (नॉन-नारकोटिक ऐनेल्जेसिक) वर्ग के हैं।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) **कथन I** सही है लेकिन **कथन II** गलत है।
- (2) **कथन I** गलत है लेकिन **कथन II** सही है।
- (3) दोनों **कथन I** एवं **कथन II** सही हैं।
- (4) दोनों **कथन I** एवं **कथन II** गलत हैं।

84. बेरीलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संरचनाएँ हैं :

- (1) क्रमशः द्विलक एवं रेखीय
- (2) दोनों में शृंखला
- (3) क्रमशः शृंखला एवं द्विलक
- (4) दोनों में रेखीय

85. ऑल इंडिया रेडियो, नई दिल्ली का एक स्टेशन 1,368 kHz (किलो हर्ट्ज) की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक (ट्रांसमीटर) द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य है : [प्रकाश का वेग, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$]

- (1) 2192 m
- (2) 21.92 cm
- (3) 219.3 m
- (4) 219.2 m

अनुभाग - B (रसायनशास्त्र)

86. निम्न में से किस व्यवस्था में, उनके सामने बताए गए गुणधर्म के अनुसार, उचित क्रम नहीं दिया गया है ?

- (1) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3$: अम्लीय लक्षण के $< \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$ बढ़ते क्रम में
- (2) $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2$: ऑक्सीकरण क्षमता के $< \text{SnO}_2 < \text{PbO}_2$ बढ़ते क्रम में
- (3) $\text{HF} < \text{HCl}$: अम्लीय सामर्थ्य के $< \text{HBr} < \text{HI}$ बढ़ते क्रम में
- (4) $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S}$: pK_a मानों के बढ़ते क्रम $< \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$ में

82. The maximum temperature that can be achieved in blast furnace is :

- (1) upto 1900 K
- (2) upto 5000 K
- (3) upto 1200 K
- (4) upto 2200 K

83. Given below are two statements :

Statement I :

Aspirin and Paracetamol belong to the class of narcotic analgesics.

Statement II :

Morphine and Heroin are non-narcotic analgesics. In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) **Statement I** is correct but **Statement II** is false.
- (2) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is true.
- (3) Both **Statement I** and **Statement II** are true.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are false.

84. The structures of beryllium chloride in solid state and vapour phase, are :

- (1) Dimer and Linear, respectively
- (2) Chain in both
- (3) Chain and dimer, respectively
- (4) Linear in both

85. A particular station of All India Radio, New Delhi, broadcasts on a frequency of 1,368 kHz (kilohertz). The wavelength of the electromagnetic radiation emitted by the transmitter is : [speed of light, $c = 3.0 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$]

- (1) 2192 m
- (2) 21.92 cm
- (3) 219.3 m
- (4) 219.2 m

Section - B (Chemistry)

86. In which one of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it ?


- (1) $\text{NH}_3 < \text{PH}_3$: Increasing acidic character $< \text{AsH}_3 < \text{SbH}_3$
- (2) $\text{CO}_2 < \text{SiO}_2$: Increasing oxidizing power $< \text{SnO}_2 < \text{PbO}_2$
- (3) $\text{HF} < \text{HCl}$: Increasing acidic strength $< \text{HBr} < \text{HI}$
- (4) $\text{H}_2\text{O} < \text{H}_2\text{S}$: Increasing pK_a values $< \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$

87. समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के अनुक्रमणीय प्रसरण के लिए सही विकल्प है :
- $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
 - $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} = 0$
 - $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{total}} = 0$
 - $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
88. आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक समझलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है ?
- $\text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$
 - $\text{Fe}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$
 - $\text{O}^{2-}, \text{F}^-$
 - $\text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}$
89. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^- \text{Na}^+ \xrightarrow[\text{गर्म}]{\text{NaOH, + ?}} \text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$.
उपर्युक्त अभिक्रिया में अनुपस्थित अभिकर्मक/रसायन को पहचानें।
- CaO
 - DIBAL-H
 - B_2H_6
 - लाल फास्फोरस
90. दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय प्रकृति का है ?
- SbCl_5
 - NO_2
 - POCl_3
 - CH_2O
91. सूची-I का मिलान सूची-II से करें।
- | सूची-I | सूची-II |
|--|---------------|
| (a) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ | (i) 5.92 BM |
| (b) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | (ii) 0 BM |
| (c) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ | (iii) 4.90 BM |
| (d) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | (iv) 1.73 BM |
- नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।
- (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)
 - (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
 - (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
 - (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
92. 45°C पर एक विलयन जिसमें बेन्जीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3 : 2 हो, उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प है :
- [45°C पर बेन्जीन का वाष्प दाब 280 mm Hg तथा ऑक्टेन का वाष्प दाब 420 mm Hg है। आदर्श गैस मानें]
- 336 mm Hg
 - 350 mm Hg
 - 160 mm Hg
 - 168 mm Hg

87. For irreversible expansion of an ideal gas under isothermal condition, the correct option is :
- $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
 - $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} = 0$
 - $\Delta U = 0, \Delta S_{\text{total}} = 0$
 - $\Delta U \neq 0, \Delta S_{\text{total}} \neq 0$
88. From the following pairs of ions which one is not an iso-electronic pair ?
- $\text{Mn}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$
 - $\text{Fe}^{2+}, \text{Mn}^{2+}$
 - $\text{O}^{2-}, \text{F}^-$
 - $\text{Na}^+, \text{Mg}^{2+}$
89. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COO}^- \text{Na}^+ \xrightarrow[\text{Heat}]{\text{NaOH, + ?}} \text{CH}_3\text{CH}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$. Consider the above reaction and identify the missing reagent/chemical.
- CaO
 - DIBAL-H
 - B_2H_6
 - Red Phosphorus
90. Which of the following molecules is non-polar in nature ?
- SbCl_5
 - NO_2
 - POCl_3
 - CH_2O
91. Match List - I with List - II.
- | List - I | List - II |
|--|---------------|
| (a) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ | (i) 5.92 BM |
| (b) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ | (ii) 0 BM |
| (c) $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{4-}$ | (iii) 4.90 BM |
| (d) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ | (iv) 1.73 BM |
- Choose the correct answer from the options given below.
- (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(ii)
 - (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
 - (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)
 - (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(i)
92. The correct option for the value of vapour pressure of a solution at 45°C with benzene to octane in molar ratio 3 : 2 is :
- [At 45°C vapour pressure of benzene is 280 mm Hg and that of octane is 420 mm Hg. Assume Ideal gas]
- 336 mm of Hg
 - 350 mm of Hg
 - 160 mm of Hg
 - 168 mm of Hg

O3

93. रासायनिक अभिक्रिया के दिए क्रम में अभिकर्मक 'R' है :



- HI
- CuCN/KCN
- H₂O
- CH₃CH₂OH

94. सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I	सूची-II
(a) $\xrightarrow[\text{Anhyd. AlCl}_3 / \text{CuCl}]{\text{CO, HCl}}$	(i) हेल-फोलार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया
(b) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{CH}_3 + \text{NaOX} \longrightarrow$	(ii) गटरमान-कोख अभिक्रिया
(c) $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} + \text{R}'\text{COOH}$ $\xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4}$	(iii) हैलोफार्म अभिक्रिया
(d) $\text{R}-\text{CH}_2\text{COOH}$ $\xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) X}_2/\text{लाल P}}$	(iv) एस्टरीकरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
- (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
- (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

95. 0.007 M एसीटिक अम्ल की मोलर चालकता $20 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। एसीटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या है? सही विकल्प चुनें।


$$\left[\begin{array}{l} \Lambda_{\text{H}^+}^\circ = 350 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\circ = 50 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{array} \right]$$

- $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- $2.50 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- $1.75 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- $2.50 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

24

Hindi+English

93. The reagent 'R' in the given sequence of chemical reaction is :



- HI
- CuCN/KCN
- H₂O
- CH₃CH₂OH

94. Match List - I with List - II.

List - I	List - II
(a) $\xrightarrow[\text{Anhyd. AlCl}_3 / \text{CuCl}]{\text{CO, HCl}}$	(i) Hell-Volhard-Zelinsky reaction
(b) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-\text{CH}_3 + \text{NaOX} \longrightarrow$	(ii) Gattermann-Koch reaction
(c) $\text{R}-\text{CH}_2-\text{OH} + \text{R}'\text{COOH}$ $\xrightarrow{\text{Conc. H}_2\text{SO}_4}$	(iii) Haloform reaction
(d) $\text{R}-\text{CH}_2\text{COOH}$ $\xrightarrow[\text{(ii) H}_2\text{O}]{\text{(i) X}_2/\text{Red P}}$	(iv) Esterification

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
- (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)
- (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iv)

95. The molar conductivity of 0.007 M acetic acid is $20 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. What is the dissociation constant of acetic acid? Choose the correct option.

$$\left[\begin{array}{l} \Lambda_{\text{H}^+}^\circ = 350 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \\ \Lambda_{\text{CH}_3\text{COO}^-}^\circ = 50 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1} \end{array} \right]$$

- $1.75 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- $2.50 \times 10^{-5} \text{ mol L}^{-1}$
- $1.75 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$
- $2.50 \times 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

96. 1 लीटर आयतन में 0°C पर एक मिश्रण जिसमें 4 g O_2 एवं 2 g H_2 ली गई हो, उसका कुल दाब (atm में) के सही विकल्प को चुनें।

[दिया गया है : $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $T = 273 \text{ K}$]






- (1) 25.18
- (2) 26.02
- (3) 2.518
- (4) 2.602

97. किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आरेनियस समीकरण $\left(\ln k \text{ v/s } \frac{1}{T} \right)$ के ढाल का मान $-5 \times 10^3 \text{ K}$ है। अभिक्रिया के लिए E_a का मान है। सही विकल्प चुनें।

[दिया गया है : $R = 8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$]

- (1) 166 kJ mol^{-1}
- (2) -83 kJ mol^{-1}
- (3) 41.5 kJ mol^{-1}
- (4) 83.0 kJ mol^{-1}

98. निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद है :



- Choose the correct option for the total pressure (in atm.) in a mixture of 4 g O_2 and 2 g H_2 confined in a total volume of one litre at 0°C is :

[Given $R = 0.082 \text{ L atm mol}^{-1}\text{K}^{-1}$, $T = 273 \text{ K}$]






- (1) 25.18
- (2) 26.02
- (3) 2.518
- (4) 2.602

97. The slope of Arrhenius Plot $\left(\ln k \text{ v/s } \frac{1}{T} \right)$ of first order reaction is $-5 \times 10^3 \text{ K}$. The value of E_a of the reaction is. Choose the correct option for your answer.

[Given $R = 8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$]

- (1) 166 kJ mol^{-1}
- (2) -83 kJ mol^{-1}
- (3) 41.5 kJ mol^{-1}
- (4) 83.0 kJ mol^{-1}

98. The product formed in the following chemical reaction is :




99. सूची-I का मिलान सूची-II से करें।

सूची-I	सूची-II
(a) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$	(i) अम्ल वर्षा
(b) $\text{HOCl}(\text{g}) \xrightarrow{\text{h}\nu} \cdot\text{OH} + \cdot\text{Cl}$	(ii) धूम-कोहरा
(c) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	(iii) ओजोन क्षरण
(d) $\text{NO}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{h}\nu} \text{NO}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$	(iv) क्षोभमंडलीय प्रदूषण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें।

- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (3) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (4) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

100. निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद 'X' है :



- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

अनुभाग - A (जीवविज्ञान : वनस्पतिविज्ञान)

101. जब गुणसूत्रबिन्दु, गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है ?

- (1) उपमध्यकेन्द्री
- (2) अग्रबिन्दुक
- (3) मध्यकेन्द्री
- (4) अंतकेन्द्री

102. समीकरण $\text{GPP} - \text{R} = \text{NPP}$ में R किसे निरूपित करता है ?

- (1) पर्यावरण कारक
- (2) श्वसन हानि
- (3) विकिरण ऊर्जा
- (4) मंदन कारक


99. Match List - I with List - II.

List - I	List - II
(a) $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{SO}_3(\text{g})$	(i) Acid rain
(b) $\text{HOCl}(\text{g}) \xrightarrow{\text{h}\nu} \cdot\text{OH} + \cdot\text{Cl}$	(ii) Smog
(c) $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{CaSO}_4 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$	(iii) Ozone depletion
(d) $\text{NO}_2(\text{g}) \xrightarrow{\text{h}\nu} \text{NO}(\text{g}) + \text{O}(\text{g})$	(iv) Tropospheric pollution

Choose the correct answer from the options given below.

- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iii), (b)-(ii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (3) (a)-(i), (b)-(ii), (c)-(iii), (d)-(iv)
- (4) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)

100. The intermediate compound 'X' in the following chemical reaction is :



- (1)
- (2)

- (3)
- (4)

- (3)
- (4)

Section - A (Biology : Botany)

101. When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as :

- (1) Sub-metacentric
- (2) Acrocentric
- (3) Metacentric
- (4) Telocentric

102. In the equation $\text{GPP} - \text{R} = \text{NPP}$

R represents :

- (1) Environment factor
- (2) Respiration losses
- (3) Radiant energy
- (4) Retardation factor

103. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए :

सूची - I		सूची - II	
(a)	सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकायें	(i)	संवहन उत्तक
(b)	एक उत्तक जिसमें सभी कोशिकायें संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हैं	(ii)	विभज्योत्तक
(c)	विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला उत्तक	(iii)	स्कलिरिड
(d)	अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकायें	(iv)	सरल उत्तक

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) |

104. निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रबिन्दु का विभाजन होता है ?

- (1) पश्चावस्था - II
- (2) अंत्यावस्था - II
- (3) मध्यावस्था - I
- (4) मध्यावस्था - II

105. सूची - I को सूची - II से सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - II	
(a)	क्रिस्टी	(i)	गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्णन
(b)	थायलेकॉयड	(ii)	गॉल्जी उपकरण में डिस्क-आकार की थैलियाँ
(c)	गुणसूत्रबिन्दु	(iii)	सूत्रकणिका में अंतर्वलित लवक की पीठिका में चपटी शिल्लीनूमा थैलियाँ
(d)	सिस्टर्नी	(iv)	

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) |

106. द्विसंधी पुंकेसर किसमें पाये जाते हैं ?

- (1) मटर
- (2) चाइना रोज और नींबू
- (3) चाइना रोज
- (4) नींबू

103. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Cells with active cell division capacity	(i)	Vascular tissues
(b)	Tissue having all cells similar in structure and function	(ii)	Meristematic tissue
(c)	Tissue having different types of cells	(iii)	Sclereids
(d)	Dead cells with highly thickened walls and narrow lumen	(iv)	Simple tissue

Select the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (i) | (ii) | (iii) |
| (2) | (iii) | (ii) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) |

104. Which of the following stages of meiosis involves division of centromere ?

- (1) Anaphase II
- (2) Telophase II
- (3) Metaphase I
- (4) Metaphase II

105. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Cristae	(i)	Primary constriction in chromosome
(b)	Thylakoids	(ii)	Disc-shaped sacs in Golgi apparatus
(c)	Centromere	(iii)	Infoldings in mitochondria
(d)	Cisternae	(iv)	Flattened membranous sacs in stroma of plastids

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) |

106. Diadelphous stamens are found in :

- (1) Pea
- (2) China rose and citrus
- (3) China rose
- (4) Citrus

107. एक पादप के परागकोश से परागकणों के, एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानान्तरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप में भिन्न प्रकार के परागकण लाये जाते हैं ?
- उन्मील परागणी
 - अनुन्मील्य परागणी
 - परनिषेचन
 - सजातपुष्टी परागण
108. एक खेत में घासपात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हारमोन उपयोग में लाया जाता है ?
- 2, 4-डी
 - आई.बी.ए.
 - आइ.ए.ए.
 - एन.ए.ए.
109. निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनीटाल होता है ?
- वॉल्वॉक्स
 - यूलोथ्रिक्स
 - एक्टोकार्पस
 - ग्रासिलरिया
110. जेल पर रखे, एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डी.एन.ए. रस्जुकों को जब यु.वी. विकिरण के अन्तर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं ?
- गहरी लाल पट्टियाँ
 - चमकीली नीली पट्टियाँ
 - पीली पट्टियाँ
 - चमकीली नारंगी पट्टियाँ
111. निम्नलिखित में से कौन, पादपों में द्वितीयक उपापचयज नहीं हैं ?
- विनब्लेस्टीन, करक्यूमिन
 - रबर, गोंद
 - मार्फीन, कोडीन
 - एमीनो अम्ल, ग्लूकोज
112. प्रकृति में अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद, प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा ?
- सहोपकारिता
 - भक्षण
 - संसाधन विभाजन
 - स्पर्धा निर्मुक्त
113. अन्तरजातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ?
- जाति A (-) ; जाति B (-)
 - जाति A (+) ; जाति B (0)
 - जाति A (-) ; जाति B (0)
 - जाति A (+) ; जाति B (+)
107. The term used for transfer of pollen grains from anthers of one plant to stigma of a different plant which, during pollination, brings genetically different types of pollen grains to stigma, is :
- Chasmogamy
 - Cleistogamy
 - Xenogamy
 - Geitonogamy
108. The plant hormone used to destroy weeds in a field is :
- 2, 4-D
 - IBA
 - IAA
 - NAA
109. Which of the following algae contains mannitol as reserve food material ?
- Volvox*
 - Ulothrix*
 - Ectocarpus*
 - Gracilaria*
110. DNA strands on a gel stained with ethidium bromide when viewed under UV radiation, appear as :
- Dark red bands
 - Bright blue bands
 - Yellow bands
 - Bright orange bands
111. Which of the following are **not** secondary metabolites in plants ?
- Vinblastin, curcumin
 - Rubber, gums
 - Morphine, codeine
 - Amino acids, glucose
112. Inspite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival ?
- Mutualism
 - Predation
 - Resource partitioning
 - Competitive release
113. Amensalism can be represented as :
- Species A (-) ; Species B (-)
 - Species A (+) ; Species B (0)
 - Species A (-) ; Species B (0)
 - Species A (+) ; Species B (+)

114. परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भूषकोष निम्नलिखित में से कौन सा होता है ?
 (1) 7-केन्द्रकीय और 7-कोशिकीय
 (2) 8-केन्द्रकीय और 8-कोशिकीय
 (3) 8-केन्द्रकीय और 7-कोशिकीय
 (4) 7-केन्द्रकीय और 8-कोशिकीय
115. सॉरघम में CO_2 स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है ?
 (1) सक्सीनिक अम्ल
 (2) फास्फोग्लीसरिक अम्ल
 (3) पाइरुविक अम्ल
 (4) आक्जेलोएसिटिक अम्ल
116. पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है ?
 (1) सुधृत्यता
 (2) परिपक्वता
 (3) प्रत्यास्थता
 (4) नम्यता
117. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - II	
(a)	जीवद्रव्य संलयन	(i)	पूर्णशक्तता
(b)	पादप ऊतक संवर्धन	(ii)	पोमेटो
(c)	मेरिस्टेम संवर्धन	(iii)	सोमाक्लोन
(d)	सूक्ष्मप्रवर्धन	(iv)	विषाणु मुक्त पादप

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) |

118. निम्नलिखित में से कौन एक, पी.सी.आर. (पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया) का एक अनुप्रयोग नहीं है ?
 (1) पृथक किये गये प्रोटीन का शुद्धीकरण
 (2) जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना
 (3) आणविक निदान
 (4) जीन प्रवर्धन
119. निम्नलिखित में से कौन से शैवाल कैराजीन उत्पन्न करते हैं ?
 (1) लाल शैवाल
 (2) नील-हरित शैवाल
 (3) हरित शैवाल
 (4) भूरे शैवाल

114. A typical angiosperm embryo sac at maturity is :
 (1) 7-nucleate and 7-celled
 (2) 8-nucleate and 8-celled
 (3) 8-nucleate and 7-celled
 (4) 7-nucleate and 8-celled

115. The first stable product of CO_2 fixation in sorghum is :
 (1) Succinic acid
 (2) Phosphoglyceric acid
 (3) Pyruvic acid
 (4) Oxaloacetic acid

116. Plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kinds of structures. This ability is called :
 (1) Plasticity
 (2) Maturity
 (3) Elasticity
 (4) Flexibility

117. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Protoplast fusion	(i)	Totipotency
(b)	Plant tissue culture	(ii)	Pomato
(c)	Meristem culture	(iii)	Somaclones
(d)	Micropropagation	(iv)	Virus free plants

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (iv) | (i) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (4) | (ii) | (i) | (iv) |

118. Which of the following is **not** an application of PCR (Polymerase Chain Reaction) ?
 (1) Purification of isolated protein
 (2) Detection of gene mutation
 (3) Molecular diagnosis
 (4) Gene amplification

119. Which of the following algae produce Carrageen ?
 (1) Red algae
 (2) Blue-green algae
 (3) Green algae
 (4) Brown algae

120. जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F_1 और F_2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है?
- पनेट वर्ग
 - नेट वर्ग
 - बुलेट वर्ग
 - पंच वर्ग
121. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- परिकेन्द्रकी अवकाश, केन्द्रक के अन्दर उपस्थित पदार्थों और कोशिकाद्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है।
 - केन्द्रक छिद्र, केन्द्रक और कोशिकाद्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आर.एन.ए. अणुओं के लिए, एक पथ की भाँति कार्य करते हैं।
 - परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केन्द्रक और साधारण कोशिकाद्रव्यीय उपांग होते हैं।
 - सूक्ष्मकाय, पादपों और जन्तुओं दोनों में पायी जाती हैं।
122. जेमी किसमें पाये जाते हैं?
- कुछ अनावृतबीजीयों में
 - कुछ लिवरवर्ट में
 - मॉस में
 - टेरिडोफाइट में
123. मूल सिद्धान्त (सेन्ट्रल डोग्मा) का पूर्ण प्रवाह चित्र है :
- (a) $\text{DNA} \xrightarrow{(b)} \text{mRNA} \xrightarrow{(c)} (d)$
- (a)-प्रतिकृतिकरण; (b)-अनुलेखन; (c)-रूपान्तरण; (d)-प्रोटीन
 - (a)-पारक्रमण; (b)-रूपान्तरण; (c)-प्रतिकृतिकरण; (d)-प्रोटीन
 - (a)-प्रतिकृतिकरण; (b)-अनुलेखन; (c)-पारक्रमण; (d)-प्रोटीन
 - (a)-रूपान्तरण; (b)-प्रतिकृतिकरण; (c)-अनुलेखन; (d)-पारक्रमण
124. निम्नलिखित में से, पॉलिमरेज शृंखला अभिक्रिया (पी.सी.आर.) के चरणों का कौन सा सही अनुक्रम है?
- प्रसार, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन
 - तापानुशीलन, निष्क्रियकरण, प्रसार
 - निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, प्रसार
 - निष्क्रियकरण, प्रसार, तापानुशीलन
125. पुनर्योगज डी.एन.ए. प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धीकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से यह किसे अवक्षेपित करता है?
- हिस्टोन
 - पॉलिसैक्राइड
 - आर.एन.ए.
 - डी.एन.ए.
126. पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है?
- गामा किरणें
 - जिएटिन
 - काइनेटिन
 - अवरक्त किरणें

120. The production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F_1 and F_2 plants, can be understood from a diagram called :
- Punnett square
 - Net square
 - Bullet square
 - Punch square
121. Which of the following is an **incorrect** statement?
- The perinuclear space forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm.
 - Nuclear pores act as passages for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm.
 - Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles.
 - Microbodies are present both in plant and animal cells.
122. Gemmae are present in :
- Some Gymnosperms
 - Some Liverworts
 - Mosses
 - Pteridophytes
123. Complete the flow chart on central dogma.
- (a) $\text{DNA} \xrightarrow{(b)} \text{mRNA} \xrightarrow{(c)} (d)$
- (a)-Replication; (b)-Transcription; (c)-Translation; (d)-Protein
 - (a)-Transduction; (b)-Translation; (c)-Replication; (d)-Protein
 - (a)-Replication; (b)-Transcription; (c)-Transduction; (d)-Protein
 - (a)-Translation; (b)-Replication; (c)-Transcription; (d)-Transduction
124. Which of the following is a **correct** sequence of steps in a PCR (Polymerase Chain Reaction) ?
- Extension, Denaturation, Annealing
 - Annealing, Denaturation, Extension
 - Denaturation, Annealing, Extension
 - Denaturation, Extension, Annealing
125. During the purification process for recombinant DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out :
- Histones
 - Polysaccharides
 - RNA
 - DNA
126. Mutations in plant cells can be induced by :
- Gamma rays
 - Zeatin
 - Kinetin
 - Infrared rays

127. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ?
- ऊर्जा का पिरेमिड सदैव सीधा होता है।
 - एक घास भूमि परितन्त्र में संख्या का पिरेमिड सीधा होता है।
 - समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया उल्टा होता है।
 - समुद्र में जीवभार का पिरेमिड साधारणतया सीधा होता है।
128. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।
- | सूची - I | सूची - II |
|---------------------|----------------------------|
| (a) वातरंध्र | (i) कागजन |
| (b) कार्क कैंबियम | (ii) सुबेरिन निक्षेपण |
| (c) द्वितीयक वल्कुट | (iii) गैसों का आदान-प्रदान |
| (d) कार्क | (iv) काग-अस्तर |
- नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
- (a) (b) (c) (d)
- (ii) (iii) (iv) (i)
 - (iv) (ii) (i) (iii)
 - (iv) (i) (iii) (ii)
 - (iii) (i) (iv) (ii)
129. प्रकाशकालिता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है ?
- कक्षीय कलिका
 - पत्ती
 - प्ररोह शीर्ष
 - तना
130. निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है ?
- उत्परिवर्तन
 - आनुवंशिक विचलन
 - प्राकृतिक चयन
 - आनुवंशिक पुनर्योगजन
131. कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा, किसी दिये गये समय में कैसे संदर्भित की जाती है ?
- स्थायी अवस्था
 - स्थायी फसल
 - चरम अवस्था
 - चरम समुदाय

127. Which of the following statements is **not** correct ?
- Pyramid of energy is always upright.
 - Pyramid of numbers in a grassland ecosystem is upright.
 - Pyramid of biomass in sea is generally inverted.
 - Pyramid of biomass in sea is generally upright.
128. Match List - I with List - II.
- | List - I | List - II |
|----------------------|-------------------------|
| (a) Lenticels | (i) Phellogen |
| (b) Cork cambium | (ii) Suberin deposition |
| (c) Secondary cortex | (iii) Exchange of gases |
| (d) Cork | (iv) Phelloiderm |
- Choose the **correct** answer from the options given below.
- (a) (b) (c) (d)
- (ii) (iii) (iv) (i)
 - (iv) (ii) (i) (iii)
 - (iv) (i) (iii) (ii)
 - (iii) (i) (iv) (ii)
129. The site of perception of light in plants during photoperiodism is :
- Axillary bud
 - Leaf
 - Shoot apex
 - Stem
130. The factor that leads to Founder effect in a population is :
- Mutation
 - Genetic drift
 - Natural selection
 - Genetic recombination
131. The amount of nutrients, such as carbon, nitrogen, phosphorus and calcium present in the soil at any given time, is referred as :
- Standing state
 - Standing crop
 - Climax
 - Climax community

132. सूची- I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची- I		सूची- II	
(a) समंजन	(i)	द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण	
(b) आसंजन	(ii)	जल अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण	
(c) पृष्ठ तनाव	(iii)	द्रव अवस्था में जल हानि	
(d) बिन्दु स्नाव	(iv)	ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण	

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) |

133. रोग को ठीक करने के लिए, जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है ?

- (1) आणविक निदान
- (2) सुरक्षा परीक्षण
- (3) बायोपाइरेसी
- (4) जीन चिकित्सा

134. कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनैला और साल्विनिया, दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है ?

- (1) समबीजाणुक
- (2) विषमबीजाणुक
- (3) होमोसोरस
- (4) हेटरोसोरस

135. निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी है ?

- (1) मार्केंशिया पालिमाफर्फ
- (2) साइक्स ससिनेलिस
- (3) कैरिका पपाया
- (4) कारा

अनुभाग - B (जीवविज्ञान : वनस्पतिविज्ञान)

136. ससीमकेंद्रकी जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आर.एन.ए. पॉलिमरेज-III की भूमिका क्या है ?

- (1) mRNA के पूर्ववर्ती को अनुलेखित करता है
- (2) केवल snRNAs को अनुलेखित करता है
- (3) rRNA (28S, 18S और 5.8S) को अनुलेखित करता है
- (4) tRNA, 5s rRNA और snRNA को अनुलेखित करता है

137. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ?

- (1) जो जीव जीवित पादपों पर निर्भर होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहा जाता है।
- (2) कुछ जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन के आच्छाद कोशिका कही जाने वाली विशिष्ट कोशिकाओं में स्थिरिकृत कर सकते हैं।
- (3) दो कोशिकाओं के संलयन को केन्द्रक संलयन कहा जाता है।
- (4) अचल युग्मकों पर दो चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य-लयन कहा जाता है।

132. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Cohesion	(i)	More attraction in liquid phase
(b)	Adhesion	(ii)	Mutual attraction among water molecules
(c)	Surface tension	(iii)	Water loss in liquid phase
(d)	Guttation	(iv)	Attraction towards polar surfaces

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (ii) | (i) | (iv) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (iv) | (iii) | (ii) |

133. When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual's tissue to treat disease, it is known as :

- (1) Molecular diagnosis
- (2) Safety testing
- (3) Biopiracy
- (4) Gene therapy

134. Genera like *Selaginella* and *Salvinia* produce two kinds of spores. Such plants are known as :

- (1) Homosporous
- (2) Heterosporous
- (3) Homosorus
- (4) Heterosorus

135. Which of the following plants is monoecious ?

- (1) *Marchantia polymorpha*
- (2) *Cycas circinalis*
- (3) *Carica papaya*
- (4) Chara

Section - B (Biology : Botany)

136. What is the role of RNA polymerase III in the process of transcription in eukaryotes ?

- (1) Transcribes precursor of mRNA
- (2) Transcribes only snRNAs
- (3) Transcribes rRNAs (28S, 18S and 5.8S)
- (4) Transcribes tRNA, 5s rRNA and snRNA

137. Which of the following statements is **correct** ?

- (1) Organisms that depend on living plants are called saprophytes.
- (2) Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells.
- (3) Fusion of two cells is called Karyogamy.
- (4) Fusion of protoplasts between two motile on non-motile gametes is called plasmogamy.

138. स्तंभ - I को स्तंभ - II से सुमेलित कीजिए।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	नाइट्रोकोक्स	(i)	विनाइट्रीकरण
(b)	राइजोबियम	(ii)	अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन
(c)	थिओबैसीलस	(iii)	नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन
(d)	नाइट्रोबैक्टर	(iv)	वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |
| | | | |

139. प्लैज़िड pBR322 में जीन amp^R के अन्दर PstI प्रतिबंधन एन्जाइम है जो एम्पीसिलीन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एन्जाइम को बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लैज़िड को इकोली स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब :

- इससे पोषी कोशिका में लयन हो जायेगा
- इसमें द्वैत क्षमता के साथ नये प्रोटीन उत्पादन की क्षमता होगी
- यह पोषी कोशिका को एम्पीसिलीन प्रतिरोध नहीं बना पायेगा
- रूपांतरित कोशिकाओं में एम्पीसिलीन प्रतिरोध की क्षमता होगी और साथ ही बीटा-गैलेक्टोसाइड उत्पादन करेंगी

140. स्तंभ - I को स्तंभ - II से सुमेलित कीजिए।

स्तंभ - I		स्तंभ - II	
(a)	$\% \overset{\rightarrow}{\phi} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{(9)+1} G_1$	(i)	ब्रासिकेसी
(b)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} K_{(5)} \overset{\curvearrowright}{C_{(5)}} A_5 G_2$	(ii)	लिलिएसी
(c)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} P_{(3+3)} \overset{\curvearrowright}{A_{3+3}} G_{(3)}$	(iii)	फैबेसी
(d)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} K_{2+2} C_4 A_{2-4} G_{(2)}$	(iv)	सोलेनेसी

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (iv) | (ii) | (i) |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |
| | | | |

138. Match Column - I with Column - II.

Column - I		Column - II	
(a)	<i>Nitrococcus</i>	(i)	Denitrification
(b)	<i>Rhizobium</i>	(ii)	Conversion of ammonia to nitrite
(c)	<i>Thiobacillus</i>	(iii)	Conversion of nitrite to nitrate
(d)	<i>Nitrobacter</i>	(iv)	Conversion of atmospheric nitrogen to ammonia

Choose the **correct** answer from options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (iii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (ii) | (iv) | (i) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |
| | | | |

139. Plasmid pBR322 has PstI restriction enzyme site within gene amp^R that confers ampicillin resistance. If this enzyme is used for inserting a gene for β -galactoside production and the recombinant plasmid is inserted in an *E.coli* strain

- it will lead to lysis of host cell.
- it will be able to produce a novel protein with dual ability.
- it will not be able to confer ampicillin resistance to the host cell.
- the transformed cells will have the ability to resist ampicillin as well as produce β -galactoside.

140. Match Column - I with Column - II.

Column - I		Column - II	
(a)	$\% \overset{\rightarrow}{\phi} K_{(5)} C_{1+2+(2)} A_{(9)+1} G_1$	(i)	Brassicaceae
(b)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} K_{(5)} \overset{\curvearrowright}{C_{(5)}} A_5 G_2$	(ii)	Liliaceae
(c)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} P_{(3+3)} \overset{\curvearrowright}{A_{3+3}} G_{(3)}$	(iii)	Fabaceae
(d)	$\oplus \overset{\rightarrow}{\phi} K_{2+2} C_4 A_{2-4} G_{(2)}$	(iv)	Solanaceae

Select the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (iv) | (ii) | (i) |
| (3) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |
| | | | |

141. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- एटीपी का संश्लेषण सम्मिश्र V के द्वारा होता है।
- उपापचयन अभिक्रियायें, श्वसन में प्रोटोन प्रवणता उत्पन्न करती हैं।
- वायवीय श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित है।
- इटीसी (इले क्ट्रॉन परिवहन शृंखला) में, $\text{NADH} + \text{H}^+$ के एक अणु से एटीपी के दो अणु बनते हैं और एक FADH_2 से तीन ATP अणु बनते हैं।

142. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - II	
(a)	प्रोटीन	(i)	$\text{C}=\text{C}$ द्विबन्ध
(b)	असंतृप्त वसा अम्ल	(ii)	फास्फोडाइएस्टर बन्ध
(c)	न्यूक्लीक अम्ल	(iii)	ग्लाइकोसाइडिक बन्ध
(d)	पॉलीसैक्रेटाइड	(iv)	पेप्टाइड बन्ध

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | | | | |
|-----|------|-------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) |

143. डी.एन.ए. अंगुलीछापी में डी.एन.ए. अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में भिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है?

- एकल न्यूक्लियोटाइड
- बहुरूपीय डी.एन.ए.
- अनुषंगी डी.एन.ए.
- पुनरावृत्ति डी.एन.ए.

144. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित कीजिए।

सूची - I		सूची - II	
(a)	S अवस्था	(i)	प्रोटीनों का संश्लेषण होता है
(b)	G_2 अवस्था	(ii)	निष्क्रिय अवस्था
(c)	शांत अवस्था	(iii)	सूत्री विभाजन और डी.एन.ए. प्रतिकृतिकरण के प्रारम्भ होने के बीच अन्तराल
(d)	G_1 अवस्था	(iv)	डी.एन.ए. का प्रतिकृतिकरण

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- | | | | |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (3) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) | (iv) | (ii) | (iii) |

141. Which of the following statements is **incorrect**?

- ATP is synthesized through complex V.
- Oxidation-reduction reactions produce proton gradient in respiration.
- During aerobic respiration, role of oxygen is limited to the terminal stage.
- In ETC (Electron Transport Chain), one molecule of $\text{NADH} + \text{H}^+$ gives rise to 2 ATP molecules, and one FADH_2 gives rise to 3 ATP molecules.

142. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Protein	(i)	$\text{C}=\text{C}$ double bonds
(b)	Unsaturated fatty acid	(ii)	Phosphodiester bonds
(c)	Nucleic acid	(iii)	Glycosidic bonds
(d)	Polysaccharide	(iv)	Peptide bonds

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | | | | |
|-----|------|-------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (i) | (iv) |
| (2) | (iv) | (iii) | (i) |
| (3) | (iv) | (i) | (ii) |
| (4) | (i) | (iv) | (iii) |

143. DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence, called as :

- Single nucleotides
- Polymorphic DNA
- Satellite DNA
- Repetitive DNA

144. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	S phase	(i)	Proteins are synthesized
(b)	G_2 phase	(ii)	Inactive phase
(c)	Quiescent stage	(iii)	Interval between mitosis and initiation of DNA replication
(d)	G_1 phase	(iv)	DNA replication

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | | | | |
|-----|-------|------|-------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (ii) | (iv) | (iii) |
| (3) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) | (iv) | (ii) | (iii) |

145. निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए।

- (1) एक अनुलेखन इकाई में कूट रज्जुक, एक mRNA पर प्रतिकृत होता है।
- (2) विभक्त जीन-व्यवस्था प्रोकैरियाटों का विशिष्ट लक्षण है।
- (3) कैपिंग में मेथिल ग्वानोसीन ट्राइफास्फेट को hnRNA के 3' सिरे से जोड़ा जाता है।
- (4) जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आर.एन.ए. पॉलिमरेज, Rho कारक के साथ बन्धित हो जाता है।

146. निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए।

- (1) मज्जा किरणों की कोशिकायें जो - अंतरापूलीय कैंबियम वलय के भाग का कैंबियम निर्माण करती हैं
- (2) बाह्यत्वचा को फाड़ने वाली - स्पंजी मृदूतक शिथिल मृदु कोशिकायें जो छाल में लेस के आकार की छिद्र बनाती हैं
- (3) घास की पत्तियों की बाह्यत्वचा - सहायक कोशिकायें में बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकायें
- (4) द्विबीजपत्री पत्तियों में - यौगिक ऊतक संवहन बण्डल, मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं

147. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (1) ग्राना लैमिली में PS I और PS II दोनों होते हैं।
- (2) चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में PS I और PS II दोनों शामिल होते हैं।
- (3) ATP और NADPH + H⁺ दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है।
- (4) पीठिका - लैमिली में केवल PS I होता है और NADP रिडक्टेज का अभाव होता है।

148. कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डी.एन.ए. का संकरण कर और उसके बाद ऑटोरेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है क्योंकि :

- (1) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है।
- (2) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका पूरक होता है।
- (3) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर आंशिक रूप में आती है।
- (4) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर पूर्ण और स्पष्ट रूप में आती है।

145. Identify the **correct** statement.

- (1) The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA.
- (2) Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes.
- (3) In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end of hnRNA.
- (4) RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria.

146. Select the **correct** pair.

- (1) Cells of medullary rays - Interfascicular that form part of cambium
- (2) Loose parenchyma cells - Spongy rupturing the epidermis parenchyma and forming a lens-shaped opening in bark
- (3) Large colorless empty cells in the epidermis of grass leaves - Subsidiary cells
- (4) In dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick-walled tissue cells

147. Which of the following statements is **incorrect** ?

- (1) Grana lamellae have both PS I and PS II.
- (2) Cyclic photophosphorylation involves both PS I and PS II.
- (3) Both ATP and NADPH + H⁺ are synthesized during non-cyclic photophosphorylation.
- (4) Stroma lamellae have PS I only and lack NADP reductase.

148. Now a days it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridise its complimentary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because :

- (1) mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complimentarity with it.
- (2) mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complimentarity with it.
- (3) mutated gene partially appears on a photographic film.
- (4) mutated gene completely and clearly appears on a photographic film.

149. चरघातांकी वृद्धि समीकरण

$N_t = N_0 e^{rt}$ में, e किसे निरूपित करता है ?

- प्राकृतिक लघुगणक का आधार
- ज्यामितिक लघुगणक का आधार
- संख्या लघुगणक का आधार
- चरघातांकी लघुगणक का आधार

150. निम्नलिखित में से किन कुलों के युगम में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवनक्षमता, उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है ?

- पोएसी, सोलेनेसी
- रोजेसी, लेग्युमिनोसी
- पोएसी, रोजेसी
- पोएसी, लेग्युमिनोसी

अनुभाग - A (जीवविज्ञान : प्राणिविज्ञान)

151. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	ऐस्परजिलस नाइगर	(i)	एसीटिक अम्ल
(b)	एसीटोबैक्टर एसिटाई	(ii)	लैक्टिक अम्ल
(c)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	लैक्टोबैसिलस	(iv)	ब्यूटिरिक अम्ल

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो :

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (i) |
| (2) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |

152. यदि एक डी एन ए अणु में ऐडेनीन की मात्रा 30% है तब थायमीन, ग्वानीन एवं साइटोसीन कितने प्रतिशत होंगे ?

- T : 30 ; G : 20 ; C : 20
- T : 20 ; G : 25 ; C : 25
- T : 20 ; G : 30 ; C : 20
- T : 20 ; G : 20 ; C : 30

153. निम्न के कौन हार्मोन मोचक आई यू डी का उदाहरण है ?

- Cu 7
- मल्टीलोड 375
- CuT
- LNG 20

154. तिलचट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएँ अनुचित हैं ?

- मादा में 7-9 तक अधरक मिलकर जननिक कोष्ठ बनाते हैं।
- दोनों लिंगों में दसवें खंड में गुदीय लूम पाये जाते हैं।
- मध्यांत्र एवं पश्चांत्र के संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का एक वलय होता है।
- अधोग्रसनी मुख भागों द्वारा बनाई गयी प्रगुहा में होती है।

149. In the exponential growth equation

$N_t = N_0 e^{rt}$, e represents :

- The base of natural logarithms
- The base of geometric logarithms
- The base of number logarithms
- The base of exponential logarithms

150. In some members of which of the following pairs of families, pollen grains retain their viability for months after release ?

- Poaceae ; Solanaceae
- Rosaceae ; Leguminosae
- Poaceae ; Rosaceae
- Poaceae ; Leguminosae

Section - A (Biology : Zoology)

151. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	<i>Aspergillus niger</i>	(i)	Acetic Acid
(b)	<i>Acetobacter aceti</i>	(ii)	Lactic Acid
(c)	<i>Clostridium butylicum</i>	(iii)	Citric Acid
(d)	<i>Lactobacillus</i>	(iv)	Butyric Acid

Choose the correct answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (i) |
| (2) | (iv) | (ii) | (i) |
| (3) | (iii) | (i) | (iv) |
| (4) | (i) | (ii) | (iii) |

152. If Adenine makes 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of Thymine, Guanine and Cytosine in it ?

- T : 30 ; G : 20 ; C : 20
- T : 20 ; G : 25 ; C : 25
- T : 20 ; G : 30 ; C : 20
- T : 20 ; G : 20 ; C : 30

153. Which one of the following is an example of Hormone releasing IUD ?

- Cu 7
- Multiload 375
- CuT
- LNG 20

154. Which of the following characteristics is incorrect with respect to cockroach ?

- In females, 7th-9th sterna together form a genital pouch.
- 10th abdominal segment in both sexes, bears a pair of anal cerci.
- A ring of gastric caeca is present at the junction of midgut and hind gut.
- Hypopharynx lies within the cavity enclosed by the mouth parts.

155. अनुचित युग्म को पहचानिए।

- | | | |
|-----------------|---|----------------|
| (1) लैंकिटन | - | कोनेकैनावलिन A |
| (2) ड्रग | - | रिसिन |
| (3) एल्कैलॉइड्स | - | कोडीन |
| (4) विष | - | एबरिन |

156. रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं ?

- (a) रोगाणुरहित सूझों के उपयोग से
- (b) संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से
- (c) संक्रमित माता से भ्रूण में
- (d) चुम्बन से
- (e) वशगति से

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल (b) एवं (c)
- (2) केवल (a) एवं (c)
- (3) केवल (a), (b) एवं (c)
- (4) केवल (b), (c) एवं (d)

157. दीर्घकाली स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशीय संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमज़ोरी एवं पक्षघात होता है, कहलाती है :

- (1) माइस्थेनिया ग्रेविस
- (2) गाउट
- (3) संधिशोथ
- (4) पेशीय दुष्प्रोषण

158. इंसुलीन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो।

- (a) परिपक्व इंसुलीन में सी-पेप्टाइड नहीं होता।
- (b) आर डी एन ए प्रौद्योगिकी से उत्पादित इंसुलीन में सी-पेप्टाइड होता है।
- (c) प्राक्-इंसुलीन में सी-पेप्टाइड होता है।
- (d) इंसुलीन के ए-पेप्टाइड एवं बी-पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं।

नीचे दिए गये विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल (a), (c) एवं (d)
- (2) केवल (a) एवं (d)
- (3) केवल (b) एवं (d)
- (4) केवल (b) एवं (c)

159. निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है ?

- (1) कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है।
- (2) ये पेशियाँ रक्त वाहिका की भित्ति में उपस्थित होती हैं।
- (3) इन पेशियों में धारियाँ नहीं होती हैं।
- (4) ये अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं।

160. तारककेंद्र कब द्विगुणित होता है ?

- (1) मध्यावस्था
- (2) G₂ प्रावस्था
- (3) S-प्रावस्था
- (4) पूर्वावस्था

155. Identify the **incorrect** pair.

- | | | |
|---------------|---|----------------|
| (1) Lectins | - | Concanavalin A |
| (2) Drugs | - | Ricin |
| (3) Alkaloids | - | Codeine |
| (4) Toxin | - | Abrin |

156. Veneral diseases can spread through :

- (a) Using sterile needles
- (b) Transfusion of blood from infected person
- (c) Infected mother to foetus
- (d) Kissing
- (e) Inheritance

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (b) and (c) only
- (2) (a) and (c) only
- (3) (a), (b) and (c) only
- (4) (b), (c) and (d) only

157. Chronic auto immune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscle is called as :

- (1) Myasthenia gravis
- (2) Gout
- (3) Arthritis
- (4) Muscular dystrophy

158. With regard to insulin choose correct options.

- (a) C-peptide is not present in mature insulin.
- (b) The insulin produced by rDNA technology has C-peptide.
- (c) The pro-insulin has C-peptide.
- (d) A-peptide and B-peptide of insulin are interconnected by disulphide bridges.

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (a), (c) and (d) only
- (2) (a) and (d) only
- (3) (b) and (d) only
- (4) (b) and (c) only

159. Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle ?

- (1) Communication among the cells is performed by intercalated discs
- (2) These muscles are present in the wall of blood vessels
- (3) These muscle have no striations
- (4) They are involuntary muscles

160. The centriole undergoes duplication during :

- (1) Metaphase
- (2) G₂ phase
- (3) S-phase
- (4) Prophase

161. डॉबसन इकाई किस की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है?
- ओजोन
 - क्षेभमंडल
 - सी एफ सी
 - समतापमंडल
162. अंतःश्लिलका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं?
- गॉल्जी सम्मिश्र, सूत्रकणिका, राइबोसोम एवं लयनकाय
 - गॉल्जी सम्मिश्र, अंतर्द्रव्यी जालिका, सूत्रकणिका एवं लयनकाय
 - अंतर्द्रव्यी जालिका, सूत्रकणिका, राइबोसोम एवं लयनकाय
 - अंतर्द्रव्यी जालिका, गॉल्जी सम्मिश्र, लयनकाय एवं रसधानी
163. निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है?
- rRNA
 - siRNA
 - mRNA
 - tRNA
164. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	विखंडावस्था	(i)	सीलेन्टरेटा
(b)	नाल-तंत्र	(ii)	टीनोफोरा
(c)	कंकत पट्टिका	(iii)	ऐनेलिडा
(d)	दंश कोशिका	(iv)	पोरीफेरा

निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (2) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) | (iv) | (iii) | (i) |
| (4) | (iii) | (iv) | (i) |

165. अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइप्पन्नेटा का उपांतीभवन है?
- पारगतिक्रम
 - स्थूलपट्ट
 - तनुपट्ट
 - युग्मपट्ट

166. 'AB' रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्व ग्राही क्यों कहते हैं?
- RBC में ऐंटी-A एवं ऐंटी-B प्रतिरक्षी की उपस्थिति के कारण
 - प्लाज्मा में ऐंटी-A एवं ऐंटी-B प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण
 - RBC की सतह पर प्रतिजन A एवं B की अनुपस्थिति के कारण
 - प्लाज्मा में प्रतिजन A एवं B की अनुपस्थिति के कारण

161. Dobson units are used to measure thickness of:
- Ozone
 - Troposphere
 - CFCs
 - Stratosphere
162. The organelles that are included in the endomembrane system are:
- Golgi complex, Mitochondria, Ribosomes and Lysosomes
 - Golgi complex, Endoplasmic reticulum, Mitochondria and Lysosomes
 - Endoplasmic reticulum, Mitochondria, Ribosomes and Lysosomes
 - Endoplasmic reticulum, Golgi complex, Lysosomes and Vacuoles
163. Which of the following RNAs is not required for the synthesis of protein?
- rRNA
 - siRNA
 - mRNA
 - tRNA
164. Match List - I with List - II.
- | List - I | List - II |
|------------------|------------------|
| (a) Metamerism | (i) Coelenterata |
| (b) Canal system | (ii) Ctenophora |
| (c) Comb plates | (iii) Annelida |
| (d) Cnidoblasts | (iv) Porifera |
- Choose the **correct** answer from the options given below.
- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|------|
| (1) | (iii) | (iv) | (ii) |
| (2) | (iv) | (i) | (ii) |
| (3) | (iv) | (iii) | (i) |
| (4) | (iii) | (iv) | (i) |
165. Which stage of meiotic prophase shows terminalisation of chiasmata as its distinctive feature?
- Diakinesis
 - Pachytene
 - Leptotene
 - Zygotene
166. Persons with 'AB' blood group are called as "Universal recipients". This is due to:
- Presence of antibodies, anti-A and anti-B, on RBCs
 - Absence of antibodies, anti-A and anti-B, in plasma
 - Absence of antigens A and B on the surface of RBCs
 - Absence of antigens A and B in plasma

167. कूपिकाओं (विसरण स्थल) में ऑक्सीजन (O_2) एवं कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का आंशिक दबाव (mm Hg में) होता है :

- $pO_2 = 95$ एवं $pCO_2 = 40$
- $pO_2 = 159$ एवं $pCO_2 = 0.3$
- $pO_2 = 104$ एवं $pCO_2 = 40$
- $pO_2 = 40$ एवं $pCO_2 = 45$

168. सक्कस एट्रिक्स का संदर्भ है :

- जठर रस से
- काइम से
- अग्नाशयी रस से
- आंत्र रस से

169. स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं ?

- परिपीतक अवकाश
- जोना पेल्युसिडा
- कोरोना रेडिएटा
- पीतक ज़िल्ली

170. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	फाइसेलिया	(i)	मुक्ताशुक्ति
(b)	लिमूलस	(ii)	पुर्तगाली युद्ध मानव
(c)	एनसाइलोस्टोमा	(iii)	जीवित जीवाशम
(d)	पिंकटाडा	(iv)	अंकुशकृमि

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (i) | (iv) | (iii) |
| (3) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) | (iv) | (i) | (iii) |

171. एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषमयुगमजी हैं के संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोगयुक्त होगा ?

- 25%
- 100%
- 50%
- 75%

172. निम्न कथनों को पढ़ो।

- मेटाजनेसिस कृमियों में पाया जाता है।
- एकाइनोडर्म त्रिकोरक एवं गुहीय जंतु होते हैं।
- गोलकृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है।
- टीनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएँ पाचन में सहायता करती हैं।
- जल संवहन का एकाइनोडर्म की विशिष्टता होती है।

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।

- (a), (d) एवं (e) सही हैं।
- (b), (c) एवं (e) सही हैं।
- (c), (d) एवं (e) सही हैं।
- (a), (b) एवं (c) सही हैं।

167. The partial pressures (in mm Hg) of oxygen (O_2) and carbon dioxide (CO_2) at alveoli (the site of diffusion) are :

- $pO_2 = 95$ and $pCO_2 = 40$
- $pO_2 = 159$ and $pCO_2 = 0.3$
- $pO_2 = 104$ and $pCO_2 = 40$
- $pO_2 = 40$ and $pCO_2 = 45$

168. Succus entericus is referred to as :

- Gastric juice
- Chyme
- Pancreatic juice
- Intestinal juice

169. Receptors for sperm binding in mammals are present on :

- Perivitelline space
- Zona pellucida
- Corona radiata
- Vitelline membrane

170. Match the following :

List - I		List - II	
(a)	<i>Physalia</i>	(i)	Pearl oyster
(b)	<i>Limulus</i>	(ii)	Portuguese Man of War
(c)	<i>Ancylostoma</i>	(iii)	Living fossil
(d)	<i>Pinctada</i>	(iv)	Hookworm

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (iii) | (iv) |
| (2) | (i) | (iv) | (iii) |
| (3) | (ii) | (iii) | (i) |
| (4) | (iv) | (i) | (iii) |

171. In a cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anaemia gene, what percentage of the progeny will be diseased ?

- 25%
- 100%
- 50%
- 75%

172. Read the following statements.

- Metagenesis is observed in Helminths.
- Echinoderms are triploblastic and coelomate animals.
- Round worms have organ-system level of body organization.
- Comb plates present in ctenophores help in digestion.
- Water vascular system is characteristic of Echinoderms.

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (a), (d) and (e) are correct
- (b), (c) and (e) are correct
- (c), (d) and (e) are correct
- (a), (b) and (c) are correct

173. ओडी अवरोधिनी कहाँ उपस्थित होती है ?

- (1) जठर-ग्रसिका संधि
- (2) अग्रक्षुद्रांत्र एवं ग्रहणी संधि
- (3) त्रिकांत्र संधि
- (4) यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं ग्रहणी संधि

174. कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है ?

- (1) एपिनेफ्रीन
- (2) थ्रोम्बोकाइनेज
- (3) थ्रोम्बिन
- (4) रेनिन

175. निम्न में कौन मस्कडी कुल में आता है ?

- (1) तिलचट्टा
- (2) मक्खी
- (3) जुगनू
- (4) टिड्डा

176. फलमक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र ($2n$) होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था की G_1 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है तब S-प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी ?

- (1) 4
- (2) 32
- (3) 8
- (4) 16

177. निम्न में कौन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है ?

- (1) विटामिन की मात्रा में सुधार करना
- (2) सूक्ष्म-पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार करना
- (3) प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना
- (4) रोगों की प्रतिरोधता में सुधार करना

178. एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लिएज द्वारा डी एन ए को विशिष्ट स्थिति पर काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है ?

- (1) पैलीन्ड्रोमिक न्यूक्लिओटाइड अनुक्रम
- (2) बहु (ए) पुच्छन अनुक्रम
- (3) अपह्लासित प्रारम्भक अनुक्रम
- (4) ओकाजाकी अनुक्रम

173. Sphincter of oddi is present at :

- (1) Gastro-oesophageal junction
- (2) Junction of jejunum and duodenum
- (3) Ileo-caecal junction
- (4) Junction of hepato-pancreatic duct and duodenum

174. Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins ?

- (1) Epinephrine
- (2) Thrombokinase
- (3) Thrombin
- (4) Renin

175. Which one of the following belongs to the family Muscidae ?

- (1) Cockroach
- (2) House fly
- (3) Fire fly
- (4) Grasshopper

176. The fruit fly has 8 chromosomes ($2n$) in each cell. During interphase of Mitosis if the number of chromosomes at G_1 phase is 8, what would be the number of chromosomes after S phase ?

- (1) 4
- (2) 32
- (3) 8
- (4) 16

177. Which of the following is **not** an objective of Biofortification in crops ?

- (1) Improve vitamin content
- (2) Improve micronutrient and mineral content
- (3) Improve protein content
- (4) Improve resistance to diseases

178. A specific recognition sequence identified by endonucleases to make cuts at specific positions within the DNA is :

- (1) Palindromic Nucleotide sequences
- (2) Poly(A) tail sequences
- (3) Degenerate primer sequence
- (4) Okazaki sequences

179. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान कीजिए।

सूची - I		सूची - II	
(a)	वॉल्ट	(i)	गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं।
(b)	आई यू डी	(ii)	शुक्रवाहक को हटाना
(c)	शुक्रवाहक उच्छेदन	(iii)	गर्भाशय में शुक्राणुओं की भक्षकाणुक्रिया
(d)	नलिका उच्छेदन	(iv)	डिम्बवाहिनी नलिका को हटाना

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो।

(a) (b) (c) (d)

- (1) (ii) (iv) (iii) (i)
- (2) (iii) (i) (iv) (ii)
- (3) (iv) (ii) (i) (iii)
- (4) (i) (iii) (ii) (iv)

180. किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग-क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आण्विक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है?

- (1) ELISA तकनीक
- (2) संकरण तकनीक
- (3) वैस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक
- (4) सर्दन ब्लोटिंग तकनीक

181. कूपिकाओं में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करो।

- (1) उच्च pO_2 , उच्च pCO_2 , निम्न H^+ , अपेक्षाकृत उच्च तापमान
- (2) निम्न pO_2 , निम्न pCO_2 , अधिक H^+ , अपेक्षाकृत उच्च तापमान
- (3) उच्च pO_2 , निम्न pCO_2 , निम्न H^+ , अपेक्षाकृत कम तापमान
- (4) निम्न pO_2 , उच्च pCO_2 , अधिक H^+ , अपेक्षाकृत उच्च तापमान

182. पी सी आर के उपयोग से जीन प्रवर्धन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता तब निम्न में पी सी आर का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा?

- (1) निष्क्रियकरण
- (2) लाइगेशन
- (3) तापानुशीलन
- (4) प्रसार

179. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Vaults	(i)	Entry of sperm through Cervix is blocked
(b)	IUDs	(ii)	Removal of Vas deferens
(c)	Vasectomy	(iii)	Phagocytosis of sperms within the Uterus
(d)	Tubectomy	(iv)	Removal of fallopian tube

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | | | | |
|-----|-------|-------|-----------|
| (a) | (b) | (c) | (d) |
| (1) | (ii) | (iv) | (iii) (i) |
| (2) | (iii) | (i) | (iv) (ii) |
| (3) | (iv) | (ii) | (i) (iii) |
| (4) | (i) | (iii) | (ii) (iv) |

180. For effective treatment of the disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic techniques is very useful for early detection?

- (1) ELISA Technique
- (2) Hybridization Technique
- (3) Western Blotting Technique
- (4) Southern Blotting Technique

181. Select the favourable conditions required for the formation of oxyhaemoglobin at the alveoli.

- (1) High pO_2 , high pCO_2 , less H^+ , higher temperature
- (2) Low pO_2 , low pCO_2 , more H^+ , higher temperature
- (3) High pO_2 , low pCO_2 , less H^+ , lower temperature
- (4) Low pO_2 , high pCO_2 , more H^+ , higher temperature

182. During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first?

- (1) Denaturation
- (2) Ligation
- (3) Annealing
- (4) Extension

183. असीमकेन्द्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दीर्घीकरण एवं समापन को उत्प्रेरित करता है ?
 (1) डी एन ए लाइगेज
 (2) डी एन ऐज
 (3) डी एन ए पर निर्भर डी एन ए पॉलीमरेज
 (4) डी एन ए पर निर्भर आर एन ए पॉलीमरेज
184. निम्न में किस जीव में लम्बी अस्थियाँ खोखली एवं वातिल होती हैं ?
 (1) मैक्रोपस
 (2) औरनिथोरिंक्स
 (3) निओफ्रॉन
 (4) हैमीडेक्टायलस
185. इरिथ्रोपोईटिन हार्मोन जो आर.बी.सी. के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है ?
 (1) अस्थि मज्जा की कोशिकाएँ
 (2) वृक्त की जक्स्टाग्लोमेरल कोशिकाएँ
 (3) अग्नाशय की α -कोशिकाएँ
 (4) रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस की कोशिकाएँ
- अनुभाग - B (जीवविज्ञान : प्राणिविज्ञान)**
186. सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है ?
 (1) भ्रूण
 (2) गर्भाशय
 (3) ग्राफी पुटक
 (4) पीत पिंड
187. एडीनोसिन डिएपीनेज की कमी से क्या होता है ?
 (1) पाचन विकार
 (2) एडीसन रोग
 (3) प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन होना
 (4) पार्किन्सन रोग
188. मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है ?
 (1) ऑक्सीटोसिन का मोचन
 (2) प्रोलैक्टिन का मोचन
 (3) एस्ट्रोजेन एवं प्रोजेस्ट्रोन के अनुपात में वृद्धि
 (4) प्रोस्टाग्लैंडिन का संश्लेषण
189. निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है ?
 (1) हिस्टोन में लाइसिन एवं आर्जिनिन ऐमीनो अम्ल प्रचुर होते हैं।
 (2) हिस्टोन की पार्श्व शृंखला में धनात्मक आवेश होता है।
 (3) हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं।
 (4) हिस्टोन की pH किंचित अम्लीय होती है।

183. Which is the “Only enzyme” that has “Capability” to catalyse Initiation, Elongation and Termination in the process of transcription in prokaryotes ?
 (1) DNA Ligase
 (2) DNase
 (3) DNA dependent DNA polymerase
 (4) DNA dependent RNA polymerase
184. Which one of the following organisms bears hollow and pneumatic long bones ?
 (1) *Macropus*
 (2) *Ornithorhynchus*
 (3) *Neophron*
 (4) *Hemidactylus*
185. Erythropoietin hormone which stimulates R.B.C. formation is produced by :
 (1) The cells of bone marrow
 (2) Juxtaglomerular cells of the kidney
 (3) Alpha cells of pancreas
 (4) The cells of rostral adenohypophysis

Section - B (Biology : Zoology)

186. Which of the following secretes the hormone, relaxin, during the later phase of pregnancy ?
 (1) Foetus
 (2) Uterus
 (3) Graafian follicle
 (4) Corpus luteum
187. The Adenosine deaminase deficiency results into :
 (1) Digestive disorder
 (2) Addison's disease
 (3) Dysfunction of Immune system
 (4) Parkinson's disease
188. Which of these is not an important component of initiation of parturition in humans ?
 (1) Release of Oxytocin
 (2) Release of Prolactin
 (3) Increase in oestrogen and progesterone ratio
 (4) Synthesis of prostaglandins
189. Which one of the following statements about Histones is **wrong** ?
 (1) Histones are rich in amino acids - Lysine and Arginine.
 (2) Histones carry positive charge in the side chain.
 (3) Histones are organized to form a unit of 8 molecules.
 (4) The pH of histones is slightly acidic.

- 190. कथन I :** प्रकूट 'AUG' मीथियोनीन एवं फेनिल-ऐलानिन का कूट लेखन करता है।
- कथन II :** 'AAA' एवं 'AAG' दोनों प्रकूट ऐमीनो अम्ल लाइसिन का कूट लेखन करते हैं।
- उपर्युक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो।
- कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है।
 - कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है।
 - दोनों कथन I एवं कथन II सही हैं।
 - दोनों कथन I एवं कथन II गलत हैं।
- 191. लिपिड से संबंधित कथन नीचे दिए गए हैं।**
- ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त बसा अम्ल कहते हैं।
 - लेसिथिन फॉस्फोलिपिड है।
 - ट्राइहाइड्रॉक्सी प्रॉपेन ग्लिसरॉल है।
 - पाल्मिटिक अम्ल में कार्बोक्सिल कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं।
 - ऐरेकिडोनिक अम्ल में 16 कार्बन परमाणु होते हैं।
- निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।
- केवल (b) एवं (c)
 - केवल (b) एवं (e)
 - केवल (a) एवं (b)
 - केवल (c) एवं (d)
- 192. केंचुए के पुरोमुख से संबंधित कथनों में दिए गए हैं।**
- यह मुख को ढकने का कार्य करता है।
 - यह फान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है जिसमें यह रेंग सकता है।
 - यह एक संवेदी संरचना है।
 - यह शरीर का प्रथम खंड है।
- निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।
- (a), (b), (c) एवं (d) सही हैं।
 - (b) एवं (c) सही हैं।
 - (a), (b) एवं (c) सही हैं।
 - (a), (b) एवं (d) सही हैं।
- 193. निम्न में कौन मल्टीपल ओवूलेशन ऐम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक (MOET) का चरण नहीं है ?**
- गाय को कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा निषेचित किया जाता है।
 - निषेचित अंडे 8-32 कोशिका अवस्था में प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित किये जाते हैं।
 - गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है।
 - गाय एक समय में लगभग 6-8 अंडे उत्पन्न करती है।

- 190. Statement I :** The codon 'AUG' codes for methionine and phenylalanine.
- Statement II :** 'AAA' and 'AAG' both codons code for the amino acid lysine.
- In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.
- Statement I** is correct but **Statement II** is false
 - Statement I** is incorrect but **Statement II** is true
 - Both **Statement I** and **Statement II** are true
 - Both **Statement I** and **Statement II** are false
- 191. Following are the statements with reference to 'lipids'.**
- Lipids having only single bonds are called unsaturated fatty acids.
 - Lecithin is a phospholipid.
 - Trihydroxy propane is glycerol.
 - Palmitic acid has 20 carbon atoms including carboxyl carbon.
 - Arachidonic acid has 16 carbon atoms.
- Choose the **correct** answer from the options given below.
- (b) and (c) only
 - (b) and (e) only
 - (a) and (b) only
 - (c) and (d) only
- 192. Following are the statements about prostomium of earthworm.**
- It serves as a covering for mouth.
 - It helps to open cracks in the soil into which it can crawl.
 - It is one of the sensory structures.
 - It is the first body segment.
- Choose the **correct** answer from the options given below.
- (a), (b), (c) and (d) are correct
 - (b) and (c) are correct
 - (a), (b) and (c) are correct
 - (a), (b) and (d) are correct
- 193. Which of the following is **not** a step in Multiple Ovulation Embryo Transfer Technology (MOET) ?**
- Cow is fertilized by artificial insemination
 - Fertilized eggs are transferred to surrogate mothers at 8-32 cell stage
 - Cow is administered hormone having LH like activity for super ovulation
 - Cow yields about 6-8 eggs at a time

194. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	ऐलन का नियम	(i)	कंगारू चूहा
(b)	शारीर क्रियात्मक अनुकूलन	(ii)	मरुस्थली छिपकली
(c)	व्यवहारिक अनुकूलन	(iii)	गहराई में समुद्री मछली
(d)	जैवरसायनिक अनुकूलन	(iv)	ध्रुवीय भालू

नीचे दिए गये विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iv) | (i) | (iii) |

195. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	स्कैपुला	(i)	उपास्थियुक्त जोड़
(b)	कपाल	(ii)	चपटी अस्थि
(c)	उरोस्थि	(iii)	रेशीय जोड़
(d)	कशेरुक दंड	(iv)	त्रिभुजाकार चपटी अस्थि

निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (i) | (iii) | (ii) |
| (4) | (ii) | (iii) | (iv) |

196. कथन (A) : जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब वह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है।

कारण (R) : उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- | | |
|-----|---|
| (1) | (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। |
| (2) | (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है। |
| (3) | दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं एवं (R), (A) की उचित व्याख्या है। |
| (4) | दोनों (A) एवं (R) सत्य हैं लेकिन (R), (A) की उचित व्याख्या नहीं है। |

194. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Allen's Rule	(i)	Kangaroo rat
(b)	Physiological adaptation	(ii)	Desert lizard
(c)	Behavioural adaptation	(iii)	Marine fish at depth
(d)	Biochemical adaptation	(iv)	Polar seal

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (iv) | (i) | (ii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (4) | (iv) | (i) | (iii) |

195. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Scapula	(i)	Cartilaginous joints
(b)	Cranium	(ii)	Flat bone
(c)	Sternum	(iii)	Fibrous joints
(d)	Vertebral column	(iv)	Triangular flat bone

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|------|-------|-------|
| (1) | (iv) | (ii) | (iii) |
| (2) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (i) | (iii) | (ii) |
| (4) | (ii) | (iii) | (iv) |

196. Assertion (A) :

A person goes to high altitude and experiences 'altitude sickness' with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations.

Reason (R) :

Due to low atmospheric pressure at high altitude, the body does not get sufficient oxygen.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below.

- | | |
|-----|---|
| (1) | (A) is true but (R) is false |
| (2) | (A) is false but (R) is true |
| (3) | Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) |
| (4) | Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A) |

197. सूची - I का सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a)	फाइलेरेसिस	(i)	हीमोफिल्स इंफ्लुएँजी
(b)	अमीबिटा	(ii)	ट्राइकोफाइटॉन
(c)	न्यूमोनिया	(iii)	बुचेरेशिया बैक्ट्रोफाई
(d)	रिंगवर्म	(iv)	एंटमोबिए हिस्टोलिटिका

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।

(a) (b) (c) (d)

- (1) (i) (ii) (iv) (iii)
- (2) (ii) (iii) (i) (iv)
- (3) (iv) (i) (iii) (ii)
- (4) (iii) (iv) (i) (ii)

198. कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती हैं :

- (1) क्रमशः आसंजी संधि एवं दृढ़ संधि
- (2) क्रमशः आसंजी संधि एवं अंतराली संधि
- (3) क्रमशः अंतराली संधि एवं आसंजी संधि
- (4) क्रमशः दृढ़ संधि एवं अंतराली संधि

199. पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएँ होती हैं ?

- (a) 'H' क्षेत्र विलुप्त हो जाता है
- (b) 'A' बैंड चौड़ा हो जाता है
- (c) 'T' बैंड की चौड़ाई कम हो जाती है
- (d) मायोसिन ATP को जलअपघटित कर ADP एवं Pi का मोचन करता है
- (e) एकिटन से संलग्नित Z-रेखा अन्दर की तरफ खींच जाती है

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल (b), (c), (d), (e)
- (2) केवल (b), (d), (e), (a)
- (3) केवल (a), (c), (d), (e)
- (4) केवल (a), (b), (c), (d)

197. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Filariasis	(i)	<i>Haemophilus influenzae</i>
(b)	Amoebiasis	(ii)	<i>Trichophyton</i>
(c)	Pneumonia	(iii)	<i>Wuchereria bancrofti</i>
(d)	Ringworm	(iv)	<i>Entamoeba histolytica</i>

Choose the **correct** answer from the options given below.

(a) (b) (c) (d)

- (1) (i) (ii) (iv) (iii)
- (2) (ii) (iii) (i) (iv)
- (3) (iv) (i) (iii) (ii)
- (4) (iii) (iv) (i) (ii)

198. Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of the substances across a tissue and facilitation of communication with neighbouring cells via rapid transfer of ions and molecules.

- (1) Adhering junctions and Tight junctions, respectively.
- (2) Adhering junctions and Gap junctions, respectively.
- (3) Gap junctions and Adhering junctions, respectively.
- (4) Tight junctions and Gap junctions, respectively.

199. During muscular contraction which of the following events occur ?

- (a) 'H' zone disappears
- (b) 'A' band widens
- (c) 'T' band reduces in width
- (d) Myosine hydrolyzes ATP, releasing the ADP and Pi
- (e) Z-lines attached to actins are pulled inwards

Choose the **correct** answer from the options given below.

- (1) (b), (c), (d), (e) only
- (2) (b), (d), (e), (a) only
- (3) (a), (c), (d), (e) only
- (4) (a), (b), (c), (d) only

200. सूची - I को सूची - II के साथ मिलान करो।

सूची - I		सूची - II	
(a) अनुकूली विकिरण	(i)	शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन	
(b) अभिसारी विकास	(ii)	मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियाँ	
(c) अपसारी विकास	(iii)	तितली एवं पक्षी के पंख	
(d) मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास	(iv)	डार्विन की फिंच	

निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो।

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) | (i) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |

- o O o -

200. Match List - I with List - II.

	List - I	List - II
(a)	Adaptive radiation	(i) Selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides
(b)	Convergent evolution	(ii) Bones of forelimbs in Man and Whale
(c)	Divergent evolution	(iii) Wings of Butterfly and Bird
(d)	Evolution by anthropogenic action	(iv) Darwin Finches

Choose the **correct** answer from the options given below.

- | | (a) | (b) | (c) | (d) |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| (1) | (ii) | (i) | (iv) | (iii) |
| (2) | (i) | (iv) | (iii) | (ii) |
| (3) | (iv) | (iii) | (ii) | (i) |
| (4) | (iii) | (ii) | (i) | (iv) |

- o O o -

रफ कार्य के लिए जगह / Space For Rough Work

निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
<p>6. परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।</p> <p>7. इस पुस्तिका का संकेत है O3। यह सुनिश्चित कर लें कि इस पुस्तिका का संकेत, उत्तर पत्र के मूल प्रतिलिपि पर छापे गये संकेत से मिलता है। अगर यह भिन्न हो तो परीक्षार्थी दूसरी परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र लेने के लिए निरीक्षक को तुरंत अवगत कराएं।</p> <p>8. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।</p> <p>9. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है।</p> <p>10. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना प्रवेश-पत्र दिखाएं।</p> <p>11. केंद्र अधीक्षक या निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़ें।</p> <p>12. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दुबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।</p> <p>13. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचालित परिकलक का उपयोग वर्जित है।</p> <p>14. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित हैं। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।</p> <p>15. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।</p> <p>16. परीक्षा पुस्तिका / उत्तर पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।</p>	<p>6. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.</p> <p>7. The CODE for this Booklet is O3. Make sure that the CODE printed on the Original Copy of the Answer Sheet is the same as that on this Test Booklet. In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the Invigilator for replacement of both the Test Booklet and the Answer Sheet.</p> <p>8. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Roll No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.</p> <p>9. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet.</p> <p>10. Each candidate must show on-demand his/her Admit Card to the Invigilator.</p> <p>11. No candidate, without special permission of the centre Superintendent or Invigilator, would leave his/her seat.</p> <p>12. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.</p> <p>13. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.</p> <p>14. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.</p> <p>15. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.</p> <p>16. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.</p>